

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम–मिनी रत्न)

INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LTD. (A Govt. of India Enterprise-Mini Ratna)

"CIN-L74899DL1999GOI101707" E-mail: info@irctc.com Website: www.irctc.com

No. 2024/IRCTC/CS/AGM-25

August 02, 2024

BSE Limited (Through BSE Listing Centre)

1st Floor, New Trade Wing, Rotunda Building Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street Fort, Mumbai – 400 001

Scrip Code: 542830

National Stock Exchange of India Limited (Through NEAPS)

"Exchange Plaza", C-1, Block-G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051

Scrip Symbol: IRCTC

Sub: Public Notice in Newspaper regarding 25th Annual General Meeting of the members of the Company

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and in compliance with the MCA General Circular no 09/2023 dated September 25, 2023 read together with circulars dated December 28, 2022, December 14, 2021, December 8, 2021, January 13, 2021, April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, and May 5, 2022, (collectively referred to as "MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 read with Circular dated January 5, 2023, May 13, 2022, January 15, 2021 and May 12, 2020, (collectively referred to as "SEBI Circulars"), a Public Notice regarding 25th Annual General Meeting of the Company, with the subject "INTIMATION REGARDING 25TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC")/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM")" have been published by way of advertisement in the "Hindustan Times", "The New Indian Express", and "Mint" (in English version) and "Hindustan", "Rastriya Sahara" and "Navbharat" (in Hindi version) on August 02, 2024.

The above-mentioned is submitted herewith for your information and records.

Thanking You,

Yours faithfully.

For Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited (IRCTC)

(Suman Kalra) Company Secretary and Compliance Officer Membership No: FCS 9199

Encl: As above.

{ 'FINANCIAL STABILITY' } HINDU MARRIAGE ACT, SECTION 26

Adult offspring entitled to maintenance: HC

Shruti Kakkar

NEW DELH: The Delhi high ourt on Thursday held that adult off-spring are entitled to interim maintenancetill they are study-ing and are not financially stable, under the provisions of the Hindu Marriage Act (HMA). While Section 26 of HMA ena-

While Section 260/HMA enables the court to pass interin orders with respect to the cus-tody, maintenance and educa-tion of minor children, consist-ently with their wishes, the cour-said that gainful employment in today's competitive world may be feasible only after the child has pursued education beyond 18 years of age and thus, the

scope of education under the provision cannot be restricted.
"A child who is pursuing his education would be entitled to maintenance under Section 26 of the HMA, even after he attains the age of majority, till the time he is pursuing his education and is not financially independent. Mostly, the child would have cleared his high school (Class 12) at the age of 18 years and would be looking to join a college/university for further studies. It is only after completion of a college/university degree and in some cases, completing a post-graduation/professional degree, would the child be able to secure employment," a bench led by justice Rajiv Shakdher, and com-

becomes financially independent, whichever is earlier.

The family court had meet entitled to enhanced maintenance in view of the interest expenditure of the growing child and as per the wife's requirements commensurate with her social stants. The court had also ruled that the wife's application for enhanced interim maintenance could not be decided in a timely manner since the husband had adopted delay tactics. The husband had sought to set aside the judgment, and the wife had sought to enhance the interim maintenance.

In this case, the couple got

had a son from their wedlock in May 2001. They started living separately in January 2004 and the husband later filed for divorce on grounds of cruelty. However, the husband, during the pendency of the wife's application for enhanced interim maintenance, withdrew the divorce petition in 2016. In its ruling, the bench upheld the family court's order. Taking a holistic view, in our considered view, the amounts claimed by the wife in her enhancement application totalling 31.45.000/per month seems to be just and reasonable taking into account the financial position of the husband and the fact that the wife is unemployed," the court said.

NATIONAL EDUCATION SOCIETY FOR TRIBAL STUDENTS (NESTS) An Autonomous Organisation under Ministry of Tribal Affairs

NESTS invites Expressions of Interest (EOI) from core academic firms or bodies to assist in planning and execution at the ground/school level, aiming to enhance academic performance and foster the holistic development of tribal students in EMRSs. Interested Agencies may submit their detailed proposal at netrestand-searing/ggmail.com, on or before 31.08.2024. Details of EOI can be viewed at NESTS website https://emrs.tribal.gov.in. Joint Commissioner NESTS, New Delhi

DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED A Government of India (Ministry of Railways) Enterprise

County of the Competence of the County of th

Chief General Manager, DFCCIL, Meeru

90

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

आई०एस०ओ० ९००१ :२०१५ प्रमाणित संस्थान भोवता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) (भारत सरकार)

(सूचना)

विषय: ETP की निविदा प्रस्तुत करने की तिथि में विस्तार हेतु

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में ''Modernisatio enovation of ETP'' हेतु दिनांक 12.07.2024 को समाचार पत्रों में जारी निविदा के प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 12.08.2024 तक विस्तारित की जा रही है। विस्तृत विवरण संस्थान की वेबसाइट www.nsi.gov.in पर उपलब्ध है। अन्य शर्ते अपरिवर्तित रहेगी।

प्रशासनिक सह क्रय एवं विक्रय अधिकारी





10,187.36 9,254.00 9,689.10

			S 2	O O
			(₹ i	n crores, except ratios
Extra	ct of unaudited consolidated financial results for the quarter ende	d 30 June 2024		
S. No.	Particulars	Quarter ended (30/06/2024)	Corresponding quarter ended (30/06/2023)	Previous year ended (31/03/2024)
1	Revenue from operations	3,349.11	3,130.47	12,404.01
2	Net Profit for the period / year (before tax, exceptional items and share of (loss) / profit of joint venture)	642.65	593.56	2,359.25
3	Net Profit for the period / year before tax (after exceptional items and share of (loss) / profit of joint venture)	642.45	593.36	2,358.74
4	Net Profit for the period / year after tax and share of (loss) / profit of joint venture	494.35	456.61	1,811.31
5	Net Profit for the period / year after tax (after non controlling interest and share of (loss) / profit of joint venture)	500.12	463.88	1,842.68
6	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit for the period / year (after tax) and other comprehensive income (after tax) }	487.06	443.15	1,750.82
7	Paid-up equity share capital (Face Value of ₹ 1 each)	177.23	177.20	177.20
8	Reserves (excluding Revaluation/capital Reserve)	10,084.84	9,227.08	9,586.58
9	Securities Premium Account	547.68	534.15	534.39
10	Net worth	10,262.07	9,404.28	9,763.78
11	Outstanding Debt	1,304.09	1,394.78	1,365.09
12	Debt Equity Ratio	0.13	0.15	0.14
13	Earnings per share (Face value of ₹ 1 each) (not annualised)			
	(a) Basic	2.82	2.62	10.40
	(b) Diluted	2.82	2.61	10.38
14	Debt Service Coverage Ratio	17.65	21.07	17.39
15	Interest Service Coverage Ratio	24.02	29.39	23.21

Particulars	Quarter ended (30/06/2024)	Corresponding quarter ended (30/06/2023)	Previous year ended (31/03/2024)
Revenue from operations	2,514.16	2,347.38	9,135.60
Profit before tax	526.96	494.75	1,966.70
Profit after tax	405.39	377.67	1,509.21

financial results for the quarter ended 30 June 2024 filed with the stock exchanges under Regulation 33 and 52 of SEBI (Listing Obligation standalone and consolidated financial results for the quarter ended 30 Juni 2024 are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and Company's website (www.dabur.com).


> For and on behalf of Board of Directors Mohit Burman

Date: 01 August 2024

DIN: 00021963







Registered & Corporate Office:11th Floor, B-148, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi-110001 Tel.:011-23311263-64, Fax: 011-23311259 Website: www.irctc.com e-mail: investors@irctc.com

Members may also note that the remote e-voting period shall commence on Tuesday, August 27, 2024 (9:00 A.M., (IST) and end on Thursday, August 29, 2024 (5:00 P.M.) (IST). Additionally, the Company will be providing e-voting swstem for casting votes during the AGM.

cheques will be sent to the registered addresses in due course.

Pursuant to Section 0 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, August 24, 2024 to Friday, August 30, 2024 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and for payment of Inst dividend for financial year 2023-24. Elicident at the ACM in accordance with Finance Act, 2020, payment of dividend will be subject to deduction of tax at source (TDS) at relevant document in accordance with the provisions of the Act, 4 detailed notice regarding. Formanication wat. Tax Deducted at Source (TDS) on Final Dividend for the Financial Year 2023-24 is hosted at the website of the Company, ways. Educom. For more details, please refer to the Notes to the Notes of 25 ACM.

Manner of registering KYC details including small addresses, bank details for receiving Dividend electronically, 4 declarated in the ACM.

electronically, if declared in the AGM: SEBI vide its Circular dated November 17, 2023, read with circulars dated November 3, 2021, December, 14. ("SOP Circular") introduced common and simplified norms for processing investor's services requests by RTAs norms for furnishing PAN, complete address, email address, mobile number, specimen signature, bank details

In case of, Physical Holding	Members holding physical shares are requested to register/update their email addresses and bank account details by sending a duly signed request letter in Form ISR-1 along with supporting documents to the RTA of the Company I.e. Alankit Assignments Limited, Alankit House, 4E/2 handewalan Extension, Near Jahnedwalan Metro Station, New Delh 11 offices, or scanned ony on email at kycupdate@alankit.com through their registered mail ID and provide the following details/documents.
	1. for registering email address:
	 Folio No., b) Name of shareholder, c) Email ID, d) Mobile No.e) Copy of PAN card (self-attested), f) Copy of Address Proof (self-attested) g) Copy of share certificate (front and back).
	2. for updating Bank Account details:
	a) Name and Branch of the Bank in which you wish to receive the dividend, b) the Bank Account type, c) Bank Account Number, d) MICR Code Number, e) IFSC Code, and f) Copy of the cancelled cheque/Fassbook bearing the name of the first shareholder.
	 Members may please note the documents for KYC updation may be sent through self-attested and dated hard copies to the above mentioned address of RTA or through self-attested provided that these are sent through E-mail of of the holder registered with RTA and all documents should be self-attested by the Shareholder and in case of joint holders, by first joint holder.
In case, Demat Holding	Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address and bank account details in your demat account, as per the process advised by your DP.





EXPRESS NEWS SERVICE @ Madurai

THE Madurai Bench of the Ma-

THE Madurai Bench of the Madras High Court directed the state government to complete the land acquisition process of the Cauvery-Vaigai-Gundar Link Canal Project within 2024-25.

A division bench of Justices R Suresh Kumar and G Arul Murugan, while hearing a petition filed by one Murugesan, had directed the engineer-in-chief of the water resources department (WRD) to appear before the court either in person or through video conferencing and sought information on the allocation of funds, the status of work completed till date, the project status and works to be undertaken, including land acquisition and canal construction.

Pursuant to the earlier order, the chief engineer of the WRD, Trichy, had filed a status report and the engineer-in-chief and chief engineer (GL) of the WRD.

and the engineer-in-chief and chief engineer (GL) of the WRD appeared before the court via video conferencing. As far as

land acquisition is concerned, 92% of the work is completed in Karur, 73% in Tiruchy, and 64% in Pudukkottai.

Apart from this petition, apart from this petition, apart from this petition had been filed, seeking re-alignment of the canal to some extent and higher compensation for the acquired land. As these writ petitions are still pending before the court, it may hamper the prospect of proceeding further with the land acquisition and completing the same within the expected time.

The court said though river-linking projects have been seed to be a control of the court of the court in the court in the canal completing the same within the expected time.

pected time.
The court said though river-linking projects have been proposed at the national level and mooted many times, such huge projects would take their own time to be executed. However, Tamil Nadu, without waiting for such a major project involving peninsular rivers, has taken a policy decision to divert the floodwarter or excess water flowing into Cauvery River to the rivers such as the South Vellar, Vaigai and Gundar.

'Revoke remission of Melavalavu convict'

MADURAI: THE Madurai Bench of the Madras High Court on Thursday directed the state government to revoke a remission order and restore the conviction of a life convict in the Melavalavu massacre case, as he violated premature release conditions by getting involved in a fresh case. A division bench of Justices AD Jagadish Chandira and K Rajasekar was hearing a petition filed by A Manikandan, which stated that Sekar was one of the life convicts in the Melavalavu massacre case and he was prematurely released in 2019. However, the Melavalavu police registered a fresh case against Sekar in 2023 and he has been remanded in prison to date in the case. As Sekar violated the premature release conditions, the petitioner demanded to guash the premander conditions, the petitioner de-manded to quash the prema-ture release and restore the life conviction.



ccording to eye-witnesses, the car was speeding and it lost control while taking a orn near Padur bypass and flipped several times, on Thursday | Express

4 college students killed in road accident, 1 critical

FOUR private college students including three women and one man, died in a road accident at Padur on OMR when their car flipped multiple times and landed on the side of the road

landed on the side of the road on Thursday.

The youth who was driving the car is in critical condition, police said. According to Pallikaranai traffic investigation wing, the deceased have been identified as Mahi Swetha (21). Pavithra (21), Caroline Paul (21)

and Lingeshwaran (23). "All five were students at a

heading to Kelambakkam from Kovalam in the car driven by Siva. According to eyewitness-es, Siva was speeding. When they reached near Padur By-pass road, Siva lost control while taking a turn. The car overturned due to its speed and flipped multiple times," a po-lice source said.

Intpee multiple times," a police source said.

All five students sustained severe injuries. While Swetha, Pavithra, and Lingeshwaran died on the spot, Caroline succumbed to her injuries at the hospital. Passersby alerted the section with sweeded to the cent police, who rushed to the spot. As the car was completely mangled, the police initially struggled to recover the bodies.

EXPRESS READ

Safety run of Vande metro prototype tomorrow

Chennai: The prototype of the Vande Metro train set, an AC rake designed to carry large numbers of passengers in heavily congested sections connecting metro cities, will undergo a safety trial between Chennai Beach and Katpadi on Saturday. The IZ-car rake is capable of accommodating 3,208 passengers, with seating capacity for 1,150. It is designed to operate at a speed of 110 km/h. The trial will be conducted by the commissioner of railway safety (southern region) in the presence of Integral Coach Factory (ICF) and Southern Railway officials. ENS

T'pur contractor houses migrant workers in toilet

Tirupur: A contractor who allegedly gave accommodation to four migrant workers in a public toilet has been issued a notice by

toilet has been issued a notice by Tirupur corporation commissioner Pawan Kumar G. The incident came to light after a video of the labourers cooking and eating in the toilet in Manjappa Municipal Boys Higher Secondary School at Khaderpet spread on social media. Sources said that they have been living in the toilet for the last month.

Man touches power socket, electrocuted

Chennai: A 29-year-old man got electrocuted after touching the power socket while charging his phone in his house at Kundrathur on Wednesday. The deceased, M Balamurugan, of Thanjavur, was residing with his friend. "He had plugged in his mobile for charging. In the modile for charging. In the morning, Balamurugan in an inebriated state, accidentally touched the power socket and got electrocuted," a police officer said.

Couple arrested for duping man of ₹25 lakh

Coimbatore: The Coimbatore Rural Police arrested a couple from Kerala for cheating a man of ₹25 lakh after promising him investment in iridium trade. The arrested persons are K Shyam alias Joy Mohan (44) and his wife Sajitha (38). The complaint was filed by Srinivasan of Ennore in Chennai. Police say Ando Wilson from Kanniyakumari

introduced Srinivasan to Shyam. The couple convinced Srinivasan that he would get high returns if he purchased iridium from them and resold it to buyers abroad. ENS



MONSOON READINESS

Work on Korattur Eri canal progresses at a brisk pace at Lakshmipuram I express

Minor landslide in Nilgiris O-Valley

Nilgiris: A mild landslide occurred at Ellamalai in O-Valley panchayat near Gudalur in the district on Wednesday night. Residents demanded the panchayat to prevent the plying of heavy vehicles on the road as it would lead to further landslides. The landslip occurred near

Thiruvalluvar Nagar between Arottuparai and Ellamalai. Residents said the landslide occurred after the rain that poured for close to a month use basisded of Current and the Train in an point or of O-Valley Markal yakkam, said "We have requested the executive officer of O-Valley Markal Panchayat to take steps to construct a retaining wall as soon as possible to prevent further landslip as it would damage the nearby houses and groves and it would act as a permanent solution." E

No eyewitness produced, two acquitted in accident cases

SIDDHARTH PRABHAKAR @ Chennai

THE failure on part of the Chennai affic police to produce eye witnesses uring trial has resulted in acquittal in two separate road accident cases in the city. Both the fatal accidents had

the city. Both the fatal accidents had occurred at different locations in 2017 on the Old Mahabalipuram Road (OMR) and were investigated by the Guindy traffic investigation wing. The accused were booked under sections for rash driving and causing death by negligence, which together attract a maximum two-year jail sentence, if convicted. Passing judgements in the cases on July 18 and 23, the Alandur judicial magistrate noted that in the absence of eye witnesses, the traffic police's allegation that the accused had driven the vehicle in a rash and negligent manner causing the death of victims could not be proven.

proven.

In one of the two cases, the magistrate also pointed out that the cops did not check if footage from CCTV cameras could be obtained to prove the

allegations.
In the case decided on July 18, a 46-year-old Rajamanikam was knocked over by a two-wheeler near the Karapakkam bus stand on OMR on March 19, 2017. He later succumbed

to his injuries in the hospital. The accused R Chandran (26) was

The accused R Chandran (26) was acquitted as the investigating officer failed to produce any direct witnesses or electronic evidence in court. The witnesses who deposed were the victim's son-in-law who was in Anna Nagar at the time of accident and another bystandge who had passed the scene of occurrence when the cops were drawing a rough sketch.

In the July 23 judgement, S Arunkumar (30) was accused of driving his car rashly and hitting a two-wheeler near SRP tools junction on May 19, resulting in the death of Seenaiah. Though a motor vehicle inspector reported damage to the car, the atan. Though a motor vehicle inspector reported damage to the car, the only witness from the spot that traffic police produced testified that he had not seen the vehicle hit the two-wheeler and hence couldn't identify the driver.

Man threatens SC son in-law, booked

EXPRESS NEWS SERVICE @ Chennai

THE Otteri police have booked a 53-year-old CRPF officer and his relative under the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act for threatening his daughter's husband over phone as he opposed their marriage. The groom belongs to a Scheduled Caste

Sekar (35), the girl's cousin. According to the police, Deepak (27), an MBA graduate

who was working in a private finance company, and Radha's daughter Ramya

company, and Radha's daughter Ramya have known each other for six years. Ramya's parents had opposed their relationship.

On Tuesday, Deepak and Ramya had a self-respect marriage at Periyar Thidal in Vepery. Following this, Ramya's father, Radha and Sekar called Deepak and threatened him. The two also abused Deepak and his mother using casteist surs. Based on the complaint from Deepak, the police booked Radha and Sekar under relevant sections of BNS and SC/ST Act.



NATIONAL COUNCIL FOR CEMENT AND BUILDING MATERIALS (Under the Administrative Control of Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India) 34 KM Stone, Delhi-Mathwa Road (NH-2), Ballabagath-12 1004, Hayana, India. Ph: +91-12-2666600, Website: www.ncbindia.com

Requires (Direct Recruitment)

Advertisement No: R/02/2024 (01)

Advertisement No: R/02/2024 (01)

Advertisement No: R/02/2024 (01)

Atventisement No: R/02/2024 (01)

Atventisement No: R/02/2024 (01)

Direct Recruitment. For detailed information, please visit the website www.ncbindia.com
Any amendment or any post advertisement information shall be available on NCB website
only. The last date for receipt of application shall be 21 days from the date of publication or
this advertisement (first day of the week) in the Employment News.

DIECTOR GENERAL

ty known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IFFL-HFL) C i Office at "3rd floor, No. 41, 1st Main Road, CIT Nagar, Ch inforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter "Ac

CBC 05207/12/0008/2425 Public Notice For E-Auction For Sale of Immovable Properties

O.A. No. 183/2024

PUBLIC NOTICE TO THE FIRS

The above Original Application filed by the Applicant under Section 19 of the RDB Act, 1993 for Recovery of Debt due from Defendants for Recovery o outstandings. In spite of summons and

QuoteExpress WE KNOW WHAT WE ARE. **BUT KNOW NOT WHAT WE** MAY BE

WILLIAM SHAKESPEARE

इंडियन बैंक 🔼 Indian Bank

MOGAPPAIR EAST

Office Poonamallee, 35, 600 008 from Ethiraj Salai, Chennai - 600 008 from 20,08.2024 to 17.08.2024 on payment of Rs. 250 (Non-refundable) by way of DD/I/O favouring INDIAN BANK Las DD/I/O favouring INDIAN BANK Las denisation of bids is 17.08.2024.

Follow us at : CE @East

ommunity.
The police said that CRPF officer Rad-

ha, belonging to the Agamudayar community, is an assistant commandant. The other man who was booked is Vettu

Registered & Corporate Office:11th Floor, B-148, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi-110001 Tel.:011-23311263-64, Fax: 011-23311259 Website: www.irctc.com e-mail: investors@irctc.com

NOTICE is hereby given that the Twenty Fifth (25") Annual General Meeting ("ACM") of the Members of Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited ("the Company") will be held on Fridge, August 39, 2624 at 12:39 PM (151) through Video Conferencing ("C"C) Other Audio-Visual Means ("OAM") of unstract the business as set our SEBINICOCFOPICO-2PM ("ACM") and the compliance with NAC Circular dated September 25, 2025, SEBI Circular NESSEBINICOCFOPICO-2PM ("ACM") and the compliance with NAC Circular dated September 25, 2025, SEBI Circular NESSEBINICOCFOPICO-2PM ("ACM") and the compliance with the provisions of the Act and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI

he Company has fixed **Friday, August 23, 2024** as the **"cut-off date"** for determining the eligibility of the mate by remote e-voting or e-voting during the AGM

Wembers may also note that the remote evoling period shall commence on Tuesday, August 27, 2024 (9:00 A.M.)
(IST) and end on Thursday, August 29, 2024 (5:00 P.M.) (IST). Additionally, the Company will be providing e-voting system for casting yetsed unity the AGM.
Record Date, Dividend and Tax on Dividends:

ord Date, unvision after us, or unvisions.

The best may further note that the Board of Directors of the Company at their meeting it mmended a final dividend of ₹4.00+ per share on the face value of ₹2.2+ per share, the choiciers at the 25° AGM. The "Record date" for the purpose of determining the mend for francial year 2023-24 is Friday, August 23, 2024.

The shadded at the health throws warvairus onlinks transfer modes to the members with the contraction of the purpose of the members with the contraction.

or Annual General Meeting and for payment of final dividend for financial year 2023-24, if declared at the AGM, ordance with Finance Act, 2020, payment of dividend with be subject to detection of tax at source (TDS) a bitler rates. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate, members are requested to submit the tocuments in accordance with the provisions of the Act, detailed notice regarding "Communication w.r.t ducted at Source (TDS) on Final Dividend for the Financial Year 2023-24" is hosted at the website of the yww.yww.tci.com. — For more details, passe refer to the Notes to the Notes of 25" AGM. or of registering KYC details including email addresses, bank details for receiving Dividen motally, if declared in the AGM:

ection of Property and Online bid etc. call IIFL HFL toll free no. 1800 2672 499 from 09:30 hrs to 18:00

epaper.newindianexpress.com





RBI picks bidders for **IDBI Bank** stake sale

feedback@livemint.com MUMBAI/NEW DELHI

he Reserve Bank of India (RBI) has finished its review of potential buyers for a majority stake in IDBI Bank, approving Fairfax Financial Hollings, Emirates NBD and Kotak Mahindra Bank as bidders, three people aware of the matter said on Thursday.

The government, which owns 45.48% in IDBI Bank and state-owned Life Insurance.

owns 45.48% in IDBI Bankand state-owned Life Insurance Corp of India (LIC) which holds 49.24%, together plant to sell 60.7% of the lender. The people did not wish to be identified as the discussions are not public. The finance ministry, RB, Fairfax Pinan-cial Holdings, Emirates NBD and Kotak Mahindra Bank did over immediately search to Rev. not immediately reply to Reu-ters emails seeking comments.

ters emails seeking comments. The bidders are talking to the Indian government and will get access to IDBI Bank's private data after evaluation, one of the people said. Reuters had earlier reported interested buyers include Emirates NBJ and Canadian billionaire Prem Watsa. Fairfax India Holdings is backed by Canadian billionaire Prem Watsa and invests in bublic as well as private equity public as well as private equity securities and debt instruments in India, Emirates NBD ments in India, Emirates NBD Group offers financial services with operations in UAE, India and Saudi Arabia, among oth-ers. The government would likely open bids for the lender before the end of this fiscal, Tuhin Kanta Pandey, the country's secretary responsi-ble for the stake sale, said last week.

ITC profit in June qtr flat at ₹4,917 crore

A *Bloomberg* poll of 19 analysts had estimated ₹5,160 crore in net profit

TCLtdon Thursday missed Street esti-mates, with a mere 0.30% rise in stan-dalone net profit in the June quarter, on account of higher expenses. Net profit at the maker of Gold Flake

cigarettes and Bingo chips stood at

cigarettes and Bingo chips stood at \$4,917.45 crore in the three months through June, slightly higher than \$4,902.74 crore a year earlier.

A Bloomberg poll of B analysts had estimated \$5,160 crore inmet profit.

Revenue from operations grew 7.2% to \$18,219.74 crore, from \$16,995.49 crore a year earlier. Revenue for the quarter exceeded Street estimates of \$17,200 crore. The company said moderating inflation, improving agri terms of trade, expectations of normal monsoons and the government's thrust on public infrastructure and the rural sector will bolster consumption

thrust on public infrastructure and the rural sector will bolster consumption demand, building on the green shoots of recovery that are visible in rural markets. While private consumption expenditure remains relatively subdued, the Indian economy continues to be extremely resilient amidst a global growth slowdown, on the back of multi-dimensional and purposeful policy interventions by the government, with sussigned while green with use in

by the government, with sus-tained public expenditure in creating physical, digital, agri and rural infrastructure. India continues to be acknowledged as one of the fastest-growing majoreconomies in the world

major economiesin the world with significant headroom for growth over the medium and long term," the company said in its earnings release Thursday.

The Union budget 2024-25 provides a strong impetus to set in motion a virtuous excleo finwestment and employment while ensuring macro-economic stability and



and government's thrust on public infra, rural secto

gives an impetus to set in motion a cycle of investment and employment

enabling inclusive growth.

Several far-sighted proposals address crucial areas such as employment and employability, MSMEs, climate remergency and next-generation agriculture. The nimpriority areas, together with the road map SLOW & STEADY

THE Union budget owner an impetus to except the proposal state of the company. Cigarette business of the company cigarette business of the company. Cigarette business of the company cigarette business of th

outlook for FMCG business is improving. Valuation continues to trade at a discount com

makes it a preferred pick in the space," Kaustuh Pnwasar, deput yice president-research, Sharekhan by BNP Paribas, said. FMCG revenue (excluding cigarettes) grew 6.3% to 55.491.03 crore, driven by sta-ples, snacks, dair, personal wash, frigran-ces, homecare and agarbath. for next-generation reforms, provide a directional thrust to the nation's journey of economic transformation, it added. At the same time, expenses rose 10.8% year-on-year to 12.366.27 core during the quarter. "ITCQI performance was largely mixed, with revenues growing by 7% while unfa-

Tata Play drops Sony channels from 10 mn subscribers' plans

Tata Play's MD and CEO Harit Na

removal would hit the com-

ata Play, India's largest direct-to-home (DTH) television service pro-ider, has decided to remove

vider, has decided to remove all TV channels of Sony Pic-tures Networks India (SPNI) from the plans of nearly 10 mil-lion subscribers. The removal began with one million subscribers on Thursday and will continue for the next 10 days. Harit Nagpal, its managing director and chief executive, told Minn.

its managing director and chief executive, told Mint. The DTH operator said it was doing so because of the channels low viewership, but SPNI termed the move arbi-tary' and 'retaliatory'. Nagpal said that while 40-50% of Tata Play Scussom-ers subscribe to Sony chan-nels, only 25% actually watch them, according to viewership data. The DTH operator said it as adoing so because of the hannels low viewership, but PNI termed the move "arbiary". Nagpal said that while 0.50% of Tata Play's customs subscribe to Sony chaners, subscribe to Sony chanema, according to viewership ata.

He said, "Without return ath data, it's subscriber's bouquets. This wonders are the subscriber's bouquets.

He said, "Without recurs by the said atta, it's challenging to identify the 75% of subscribers who pay but don't watch these channels. As a challenging to identify the 75% of subscribers who pay but don't watch these channels. As a customer-company, we decided to reduce the monthly DTH bills of these subscribers.

Those who want to con't are black and the solution and the subscriber man agement system, where we've noted and communicated several discrepancies over the

subscribers.
"Those who want to con-

tinue watching Sony channels can subscribe again via our app or call centre, or by sending a

text message. The reactivation is almost instantaneous." viewership was misleading. "We are confident that our loyal viewers, who appreciate

eral discrepancies over the past years."

bouquets. This decision appears to have been

The spokesperson added that Tata Play's claim of low

diverse and high-quality con tent, will continue to find our tent, will continue to find our channels through other plat-forms nationwide. Our com-mitment to delivering top-notch entertainment remains unwavering, ensuring our audience never miss their favourite shows and channels, despite Tata Play's act the spokesperson said.

the spokesperson said.

A Tata Play spokesperson said in response, "Tata Play submits detailed statements from its SMS (subscriber man-agement system) for the 7th, 14th, 21st and 28th of every month to broadcasters. Our SMS is also regularly audited by authorized auditors of the TRA1 and never have any dis-crepancies been found by any of these audits." This isn't the first time Tata Play has removed channels from its SMS (subscriber man

from subscribers' plans to reduce their bills, but it's the reduce their bills, but it's the first time it has targeted a spe-cific broadcaster. In March 2022, Tata Play voluntarily downgraded the subscription plans of nearly half its sub-scribers.

A Canara (X) HSB

Canara HSBC Life Insurance Company Limited
139, Sector – 44, Gurupam-122003, Haryana (India)
159, Sector – 44, Gurupam-122003, Haryana (India)
150, Centil Company (Canara Canara Canara

operations grew 7. to ₹18,219.74 crore from ₹16,995.49 crore a year earlie

Registered & Corporate Office:11th Floor, B-148, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi-110001 Tel.:011-23311263-64, Fax: 011-23311259 Website: www.irctc.com e-mail: investors@irctc.com

Mint Long Story The art of storytelling



Read only on mint



SMC GLOBAL SECURITIES LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC063609
Regd. Office: 11/6B, Shanti Chamber, Pusa Road, New Delhi-110005

Helpline Number: 011-66075200

PUBLICATION NOTICE OF NON-ASSOCIATION & IMPERSONATION

Is propagate their resources agrees as seen and the propagate their resources agreed the propagate their resources agreed the propagate their resources agreed their propagate their resources agreed their propagate their pr

S.No	Fake Whatsapp Group Name	S.No	Fake Whatsapp Group Name
1	B-B SMC Global Securities Stock pull up group	21	C1 SMC Global Securities Internal Trading Group
2	SMC Stock Learning Group -VIP-011	22	SMC Global Securities 39/ 11
3	SMC Global Securities A52/ B28/ B10/ 30A	23	B7- SMC Global Securities Stock Pull up Group
4	D152- SMC Stock Boost Group	24	B2 SMC Global Securities Internal Trading Group
5	906/119/AD41/A41 SMC Global Securities Official Stock Community	25	SMC Global Securities 2/3/6/7/11/15/18/19/21/22/ 26/31/36/37/38/42/46/47/50/52/54
6	A041/ A41 SMC Global Securities Official Stock Community	26	01/B2/B3 01/B5/ F2/T10/ F-E/ H121/J2/ L6/T11/ E-D/M12/ Kaj k liye bolo 01/ H4/ Y7
7	Accel Student Group F91		SMC Global Securities Stock Pull up Group
8	D1 SMC Securities Exchange Group	27	600246195- Group in 01 SMC Global Securities Stock Pull up Group
9	SMC Stock Investment Compass 209/ 263/250/268/240	28	SMC Stock Learning Group -031
10	SMC Global Securities Club 333	29	J1 - SMC Global Securities
11	SMC Stock Investment Compass 235/ 205/265/204	30	Z52 SMC Stock Boost
12	SMC Global Securities Club 308/ 383	31	H110 -/ H110- SMC Stock Boost Group
13	T9- SMC Global Securities Stock Pull up Group	32	B3/C3/C5/D4/D5/F4/F4/F5/G3/G4 SMC
14	A1- SMC Securities Exchange Group	1 %	Global Securities Internal Trading Group
15	C6- SMC Global Securities Stock Pull up Group	33	SMC Securities 03/08/12/16/27/30/31/32/40/51/86/88
16	E38/ D157- SMC Stock Boost Group	34	C101 SMC Stock Booster
17	SMC Global Securities Club 333	35	SMC Capital Customer Care-A58/ C61
18	SMC Global Securities 10/14/35/44/25/15/4/17	36	C103/ F02- SMC Stock Boost Group
19	B-8 SMC Global Securities Stock Pull up Group		
20	SMC Securities 13/ 17/ 07/11		
	e Applications:		
	App	S.No	
1	com.rs.smc-1.0.9.apk	8	SMC Easylnvest APK for Android V 2.4
2	SMCEasyTrade	9	SMC Ace: Stock, Demat, IPO, MF apk 1.0.84 for Android
3	SMC ACE for iOS	10	
4	SMC Engularmet 2.4 SMC Global Securities Ltd.	10 SMC ACE_1.0.9.apk	

S.No	Арр	App				
1	com.rs.smc-1.0.9.apk	8	SMC Easylnvest APK for Android V 2.4			
2	SMCEasyTrade	9	SMC Ace: Stock, Demat, IPO, MF apk 1.0.84 for			
3	SMC ACE for iOS	Ъ—	Android			
4	SMC Easylnvest 2.4 SMC Global Securities Ltd	10	SMC ACE_1.0.9.apk			
_		11	SMC Global Securities Ltd Apps			
5	SMCEasyTrade APK 3.4 SMC Global Securities Ltd	12	SMC Ace: Stock Trading App Version 1.0.81			
6	SMCeKYC 2.0.6 SMC Global Securities Ltd	13	SMCEasyTrade apk Updated On Jul 09, 2024 Ap			
7	SMC Ace: Stock, Demat, IPO, MF apk	7	Version 6.0.35			
Web L	inks:					
S.No	App		App			
1	https://smceasytrade.en.softonic.com/android	SMCEasyTrade APK				
2	https://www.ldplayer.net/apps/smc-ace-stock-trading-app					
3	https://www.ldplayer.net/downloads/smc-ace-stock-tradin	k.html?gclid SMC Ace: Stock Trading App				

	whatsapp Aumin.								
S.No	Number	S.No	Number	S.No	Number	S.No	Number	S.No	Number
1	9956694389	9	9355875271	17	9601717652	25	9843058142	33	7995065442
2	9621974798	10	9601023155	18	9109662768	26	8585898897	34	8401198208
3	7709341726	11	8489798398	19	8420254092	27	8939613463	35	7674863571
4	9560471893	12	9601601463	20	7044286082	28	8174528732	36	9661531605
5	1(562)542-4796	13	44 7506000000	21	8961403149	29	9601330181	37	9601196353
6	1(747)321-9713	14	9601120860	22	44 7763975023	30	8624941574		
7	9460834508	15	9601281557	23	8420448572	31	8734029771	1	
8	9951156061	16	9601547957	24	9585208402	32	9384141790		

td.
stions or need more clarifications, please do not hesitate to contact us on our
6200 (IVR Option No. 2 for Customer Support). Our Customer Service Executive
would be happy to assist you in the best manner.

देश

केंद्रकेविधेयक के विरोध में प्रस्ताव पारित

गंनी। बाररवंड विधानसभा ने द कोल बिरयिंग एरिया (अधिग्रहण एवं विकास)

रांची। झारखंड विधानसमा ने द कोल बिरियेंग एरिया। अधिग्रहण एवं विकास) संशोधन बिल, 2023 का विरोध किया है। इस बाबत विधानसमा में ध्वानसन्त से एक प्रस्ताव गुलवार को पारित किया गया। बित मंत्री डॉ. रामेश्वर उत्रांव ने प्रस्ताव स्वतन के समक्ष रखा, जिसे ध्वानिमत से पारित किया गया। प्रस्ताव में उत्तरेख है कि संगोधन बिल में इस एक्ट की मूल भावनाओं में कई अनुवित बदलाव किए गए हैं। यह देश और राज्य हित में नहीं है।

गोली चलाने वाले बच्चे को मां के संरक्षण में भेजा

त्रिवेणीगंज (सुपील)। शहर के सेंट जीन बीडिंग स्कूल में बुधवार को हुए गोली कांड के बाद पुलिस ने गोली चलाने वाले बच्चे को बुधवार की रात बरामद कर लिया। पुलिस ने बच्चे को गुरुवार को उसकी मां के साथ जुवेनाइल कोर्ट में काउसिलिंग के लिए भेजा। वहां कोर्ट ने काउसिलिंग के बाद बच्चे को मां के

कांऽसित्सि के लिए मेजी विहा कोट ने काउसित्स के बाद बच्च की नी क् संरक्षण में भेज दिया। इधर पुलिस ने घायल लड़के मो आसिक के पिता मो दिलशेर के लिखित आवेदन पर केस दर्ज कर लिया है।

आदिवासी छात्रा से गैंगरेप में पांच गिरफ्तार

अभिस्तर्श (मुमला)। गुमला जिले के सिसर्झ प्रस्त के पूस्ती थाना क्षेत्र में बुधवार को एक आदिवासी किशोरी को अमाव कर उससे गैमारे किया गया। पुलिस ने घटना में शामिल पांच वृदकों को मिराजार कर लिया है। आरोपियों में लरागे बसी पोडादोली के बिरिया उरांग, सुमित उरांग, स्वतीर उरांग, स्वतीर उरांग, स्वतीर उरांग, स्वतीर उरांग, स्वतीर अपने पांच के सामित है। शामा ने लोहरूरा के केंग्लेंज में नामांकन कराया है। बुधवार को वह किराए का कमरा खोजने गई थी।



हम विस्तारवाद नहीं विकासवाद के समर्थक : मोदी

सहयोग के

सभी क्षेत्रों

पर चर्चा

द्विपक्षीय वार्ता

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वियतनाम को हिन्द प्रशांत क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण भागीदार बताते हुए कहा कि हम विस्तारवाद नहीं, बल्कि विकासवाट का समर्थन करने हैं।

विकासवाद का समयन करत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिंग चिंग के बीच द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती को लेकर वार्ता हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए कई कदम उठाए हैं। साथ ही समग्र रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने के लिए नई कार्य योजना अपनाई है।

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता।
सुरक्षा एजेंग्सियों को पंजाब से लेकर
जम्मू कश्मीर तक आतंकी - इन्स तस्कर नेटवर्क की जड़ें गहरी होने का इनपुट मिल रहा है।
एजेंग्सियों की एक बैटक में खुफिया सुचनाओं के विश्लेषण और अलग अलग प्रेजेंटिशन से पाता चला है कि जम्मू-कश्मीर में लगातार इन्स तस्करी के मामलों में बृद्धि देखी जा रक्तरी की कामल विश्वासों और

रही है. जबकि पंजाब हथियारों और

रहा है, जबाक पंजाब हाथयारा आर गोला-बारूद की आपूर्ति का मार्ग बन रहा है। आतंकी संगठन ड्रग्स तस्करी से मिले पैसों का इस्तेमाल स्थानीय

स्तर पर आतंकियों की भर्ती करने में स्तर पर आताकथा का मता करन म कर रहे हैं। सुरक्षा बल से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क की जड़े पाकिस्तान में है। पंजाब की

वुजूखाना मामले की

अर्जी पर बहस पूरी

वाराणसी, संवाददाता। अपर जिला जज (नवम) विनोद कुमार सिंह की

अदालत में ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाना में गंदगी और शिवलिंग की आकृति पर दिए गये बयान मामले में दाखिल निगरानी अर्जी पर गुरुवार

को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। बादी पक्ष की दलील पर प्रतिवादी 5 अगस्त को जवाब दाखिल करेगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय और अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने

वियतनाम को महत्वपूर्ण भागीदार बताया

मागापुर घराापा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हिन्द प्रशांत विजन और एक्ट ईस्ट नीति में वियतनाम महत्वपूर्ण भागीदार हैं। हिन्द प्रशांत को लेकर हमारे विचारों में भी सामंजस्य है। उन्होंने कहा, हम मानते हैं कि विकस्ति भारत 2047 और वियतनाम के विजन 2045 के कारण दोनों देशों में विकास ने गति पकड़ी है। दोनों देशों के बीच सहयोग पकड़ा है। दाना दशा के बाद सहयान के नए क्षेत्र खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार में 85 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इस मौके पर नया चांग में बने सेना सापटवेयर पार्क का उदघाटन किया गया। भारत ने 30 करोड़ डालर की क्रेडिट लाइन पर भी सहमति दी।

पंजाब से कश्मीर तक फैले नेटवर्क की जड़ें गहरी होने के इनपुट

आतंकी-ड्रग्स तस्करों के

बीच गठजोड़ बड़ी चुनौती

होते ही देर कर रही है। सीमा से पाकिस्तान की ओर से

घुसपैठ की खबरें आ रही हैं। इसके

चलते पंजाब और जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों को इनपुट साझा करने को कहा गया है।

करन का कहा गया है। वर्ष 2021 से जम्मू-कश्मीर में बढ़े मामले : एक अधिकारी के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में 2021 के बाद से इन्स तस्करी के मामले

लगातार बढ़ रहे हैं। आधिकारिक

लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के गोमती नगर में बारिश

लखनऊ क गामता नगर म बाारश के बीच युवती के साथ अभद्रता के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि मैंने पूरी लिस्ट मंगा ली है। पहला नाम है पवन यादव, दूसरा है मोहम्मद अरबाज। उन्होंने सपा

सीमा पर सुरंगों का पता लगाने के लिए अभियान

साना पर सुरक्षा का पर्सा संगानिक के किस अस्पार्थ के स्वीत है। वह के स्वीत के स्वीत

हुड़दंगियों के लिए सद्भावना

नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी: योगी

आंकडे बताते है कि पिछले साल

आंकड़े बताते हैं कि फिछले साल इस्प तस्करी के 2,400 मामले दर्ज किए गए थे, जबिक 2022 में 1,659 मामले दर्ज किए गए थे। अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में भारत-पाक सोमा के जिए इस्स फेन रहा है। वहीं एंजाब की सीमाओं का इस्सेमाल इस्स के साथ हथियारों और गोला-बारूद की आपूर्ति के लिए किया जा रहा है।

युवती से

कीपरी

ा लिस्ट मांगी

अभद्रता करने वालों



फाम मिंग चिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। • हिन्दुस्तान

मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ा है। आज दोनों देशों के बीच 50 से भी ज्यादा सीची उड़ानें हैं। पर्यटन में बढ़ीतरी हो रही है तक इं-दीजा की सुचिवादी या है है। भी सीज में भूपवीन मेरिये के पुनरुद्धार का काम सफलतापूर्वक पूर्व किया गया है। उत्तरकवाद और साइबर सुरक्षा के विश्वार्थ पर स्वत्रिय बढ़्या जाएगा। बीजित्तर पेमेंट कनेवित्ति के किए हमने केंद्रीय की केंद्री सहमति वन गई है। ग्रीन इकोनोंमी और न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

के नेतत्व को सराहा

वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिंग वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिंग विया ने कहा कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत आज वैश्वक भूमिका के साथ एक शीर्ष महाश्वित है। इन उपलब्धियों के साथ उसने अपनी पहचान स्थापित की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत की जनता के जीवन में खुशहाली बढ़ेगी।

नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की अग्रिम् जमानत सुनवाई में दिल्ली पुलिस, यूपीएससी और पूजा खेड़कर की ओर से पेश

पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत खारिज

खारिज कर ही। अहालत ने पिळली

दलीलों को सुना। तीनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुनाते समय पूजा खेड़कर की अनुपरिथ्यति को लेकर एडिशनल सेशन जज देवेंद्र कुमार जांगला की अदालत ने सवाल उठाए।

भारती हेक्साकॉम लिमिटेड

0

(CIN: L74899DL1995PLC067527) पंजीकृत कार्यात्वय : भारती क्रीसेंट, 1 नेत्सन मंडेला रोड, वसंत फंज- | |, नई दिल्ली-110070, टेलीफोन: + 91-11-4666 6100, फैक्स: + 91-11-4166 6137 ई-मेल: bharlinexacom@bharlin. वैबगाइट: www.bharlinexaco

भारती हेक्साकॉम लिमिटेड की 29वीं वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में जानकारी

रवी को चुबित किया जाता है कि भारती देशसाओं दिमिटेद ('कम्पनी') की 2क्षीं का सामन्य बैठक ('प्रजीएम') तीवियो कॉर्क्सेट्रेस ('प्रीती') अन्य अधिको कुरत सीन्य (कोष्ट्रिप्प) के सादम में हुमतान्य, ठ अस्तान्य, 2024 को अस. 3026 (आईएसटी) के माध्यम से कम्पनी अधिनेयम. 2013 के लागू प्राचमानों के साथ ता तत्रकीन दिनित निममों और की स्तुति (स्तुविद्धाता द्वार्थिय और प्रकटिक्सम इसकलापी विनियम, 2015 तथा कामीट कर्मने अस्तान्य एवं सेवी द्वारा जारी साम अपने के अनुपालन में, एजीएम की स्तुतन ('सुक्ला') में सूचीबद्ध व्यवसारों के मादन होतु आयोजित की जाएंगी।

रेपनों के उद्यावतन में एजीएम की सुबना ('सूक्ना') में सूबीबद्ध व्यवसायों के ब्याबात हो आंधीका की जाएगी।

ग्रू परिचर्न के अनुपालन में सूचना और वार्षिक रिपोर्ट, विससे अच्य के साध, तर्तिय वर्ष ठट रहे हो लेकापिकि तिर्वित विराम किया है।

ग्रू परिचर्न के सूच्या के सुवना और वार्षिक रिपोर्ट, विससे अच्य के साध, तर्तिय वर्ष ठट रहे हो लेकापिक तिर्वा की स्था त्या है।

इत्य केवल चन सदस्यों को भेगी जाएगी जिनका ई-केस प्रताम प्रती है।

सूचन और केवल चन सदस्यों को भेगी जाएगी जिनका ई-केस प्रताम की स्था है।

सूचन और केवल चने सुवन की स्था है।

सूचन और क्षा की स्था है।

सूचन की स्था किया केवल की स्था है।

सूचन की स्था की स्था है।

सूचन की सूचन की स्था है।

सूचन की सूचन की स्था है।

सूचन की स

ना उपलब्ध होगा। वोट डालने तथा एजीएम में माग लेने की विधि

वोट डालने चवा एजीएम में मान लेने की विधि
क्यानी आपने तस्वरंग को चूनमा में बुधीबद्ध सभी प्रसावों पर वोट डालने के लिए
हैं—बोटिंग तबा एजीएम में हूं—वोटिंग की चुिका प्रधान करेगी। इससे
कारित्तत, तस्वरंग केवत वीती, ओलीएमी पूर्विक को प्रधान में एजीएम थे जुद करते
हैं और उसमें माग ले सकते हैं। दिमोट हैं—वोटिंग तबा हूँ—वोटिंग तुष्टिका के लंबा में
लिहत अनुदेश तबाई पाएँमा में जुनने हुं प्रक्रिया हुं प्रधान वहना में उपस्था करते
वीती, आंखीएम के माध्या से एजीएम में माग लेने वाले सदस्यों की गणना कमर्म
वीतिम्म, 2013 की बात 103 के केवीन गणपूर्वि के प्रयोगन हुं की जाएगी।
हैं—सेव पदा और अन्य विदयन के पंजीकरण, अवस्तनीकरण की विधि
खेत कमती की स्थान में अवस्तिकर का स्थित करना की परास्त्रों के

वृक्ति, कम्पनी की सम्पूर्ण शेयरहोल्डिंग अमीतिक रूप में है, अतः सभी सदस्यों की प्रमाना ई-मेल पता अपने संबंधित डियॉजिटरी पार्टिसियेट (इयॉजिटरीज) के पास तंजीकृत, अवजन करवाने की सत्ताह ही जाती है। औपनी को पास पंजीकृत ई-मेल तता का उपयोग सूमना और वार्षिक रिपोर्ट भेजने के लिए किया जाएगा।

ता का उपयाग पूराना आर वाषक रायाट नजन क तिए क्वा आएगा। अस्त के अतिरित्त, सदस्यों से, लागांत्र मध्य पर प्राप्त करने के लिए, पता आवा विव बाता विवरण में किसी परिवर्तन की सूचना देने का अनुत्रेष किया जाता है। इन प्रध्यारकों से लागांत्र प्राप्त करने के लिए ईसीएस का उपयोग करने का साहर मुनुषेव करते हैं। यह विज्ञापन कम्मी के सभी सदस्यों के हितार्थ जारी किया जा रह

कते भारती हेक्साकॉम लिमिटेड

हस्ताः./-ऋचा गुप्ता रोहतर्ग कम्पनी सचिव



अहम समझौते 2024-29 के बीच समग्र रणनीति भागीदारी की कार्ययोजना का क्रियान्वयन
 कस्ट्म महकमों के बीच क्षमता

बदाने का समझौता

 कृषि विवि इंफाल और हनोई कृषि अकादमी के बीच अनुसंघान को लेकर करार अनुसंघान को लेकर करार कानूनी क्षेत्र में सहयोग का

रेडियो व टीवी क्षेत्र में प्रसार

लेकर समझौता परंपरागत चिकित्सा को लेकर

करार

भारती और व्यॉइस आफ वियतनाम के बीच समझौता 30 करोड़ की क्रेडिट लाइन को

गुजरात में नेशनल मेरीटाइम हेरीटेज कॉम्प्लेक्स की स्थापना का समझौता

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड Securities and Exchange Board of India

सुनवाई की सूचना

ाह सूचित किया जाता है कि नीचे दी हुई सारणों में जिस नोटिसों का उल्लेख किया गया है, उसे 'कारण बताओ सूचना' जारी की गई थी। प्रपेवन 'कारण बताओ सूचना' की तामील नोटिसों के अंतिम ज्ञात पतों (जो रिकॉर्ड में उपलब्ध थे) पर नहीं हो पाई थी, इसलिए इसकी ामील 5 जुलाई, 2024 को सार्वजनिक सूचना जारी करके की गई थी। कारण बताओ सूचना के ब्यौरे नीचे सारणी में दिए गए हैं:

क्र. सं.	नोटिसी का नाम	नोटिसी का पता	मामले का नाम	'कारण बताओ सूचना' सं. एवं तारीख
1.		डी-9, ओखला विहार, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025	मैसर्स पारसोली कारपोरेशन लिमिटेड	SEBI/HO/CFD/SEC- 1/OW/P/05300/5 तारीख 8 फरवरी, 2023

इसी अनुक्रम में, सक्षम प्राधिकारी ने नोटिसी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया है। इस प्रकार, व 7 अगस्त, 2024 को दोपहर 2.30 बजे जुम (Zoom) प्लेटप्कॉर्म पर वीडियो कॉर्न्फॉर्सग के जरिए की जाएगी।

उररोशन नीटिसी को यह सुचित किया जाता है कि 'कारण बताओ सूचना' की प्रति और सुनवाई के ब्वीरे भारतीय प्रतिभूति और बिनिमय बोर्ड (सेवों) के निमम बित्त विभाग रसीएकडी से प्रारा किए जा सकते हैं, जिसका पता हम प्रकार है सेवी पवन, प्लॉट से सी-बर, पोंग च्वांक, योडा कुलों कॉम्प्लेसर, बोडा (पूर्व) , मुंबर्व 400051 । इसके अलावा, कारण बताओ सुप्ता की प्रसित्त पतिसूति और विनिमय और (सेवी) की वेबसाइट (www.sebl.gov.in) से भी डाउनलोड की जा मकती है, जो मेरी की वेबसाइट एस स जता प्रोतान के दिल्यों भी क्यांक्स (स्थाप अपनाद (स्थाप अपनाद के साम के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थ प्रोत्त के अंतर्गत दी हुई हैं: 'समन्यूयना('लीटिंग्र) - जिनकों वासील नहीं हो सकी ('Unserved Summons Notices') साम ही, युन (Zoom) 'लीटकों पर बीडिंग्री कॉन्डिमेंन के जिए की जाने वाली सुनवाई के ब्योर हम होग्ला आईटी एर होन्त मेक्कर पान कि जा सकते हैं: chetanchoratia@sebi.govi.in a nimalm@sebi.govi.in यो लीटिंग्री कोई ज्वाका आदि प्रस्तुत करना चाहे, तो ऐसे में जवाब आदि व्यविकाश सुनवाई की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अवक्य प्रस्तुत कर

यदि नोटिसी को ओर से कोई जवाब आदि प्राप्त नहीं होता है अथवा नोटिसी या नोटिसी का प्राधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित सुनवाई में उपस्थित नहीं होता है, तो सेबी द्वारा इस मामले के संबंध में रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर आगे कार्यवाही कर ली जाएगी। तारीखः 23.07.2024 स्थानः मुंबई सीबीसी 15204/11/0075/2425 चेतन चोरडिया सहायक प्रबंधक

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत और कॉपॉरेट कार्यालयः 11यां तल, बी—148, स्टेटसमैन हाउस, बाराखंबा रोढ, नई दिल्ली .110001 टेली.: 011—23311263—64, फैक्सः 011—23311259 वेबसाइटः www.irctc.com ई-मेलः investors@irctc.com

स्ताः (ग)=2331253=4, क्याः (ग)=2331259 प्यसाह्यः कामावादः क्याः ह्नारः । ।गाध्यक्षाद्याः व्या वीडियो कान्योक्षीरंग ("वीसी") ∕ अन्य अव्य−दृश्य माध्यमों ("ओएवीएम") के जरिए आयोजित की जाने वाली 25वीं वार्षिक आग बैठक के संबंध में सूचना

एपद्वास सुप्तन से जाती है कि कॉपोरंट कार्य मंत्रालय द्वारा परिपत्न रिनांक 25 सिराम्बर, 2023, लेबी परिपत्न सं से पीकोकी-2-7 पी/पाई/2023/18 रिनांक 7 अवट्टर, 2023, तथा क्या क्या लागू आविस्तृत्वाकों की अनुपातना में और सीत्री अक्टान आंक्सा) त्रितिम्य 2015 ("देवी (द्वाराकीकांक्स) त्रितिम्य) के कुत्युत्वान में देवित्तर नेशों केटीए पण्ट दृष्टिक् ("दे कंपनी") के सदस्तों की पम्त्रीसकी (25वी) वार्षिक बाम देवक ("एनीएम"), 25वी वार्षिक आन बेटक बुताए जाने के वित्तेन के संसातन हेतु पुक्रमार, 20 अवस्था, 2024 को अपसादन 12,30 वर्ची (मारतीय मानक समा) मीडियों काम्ब्री

क्षण—दृष्य मामार्गी ("ओएपीएग) के जिए आरोजित की जाएगी। कोपीट कार्म नंतात्व मार्ग की के उपलेख मार्ग में क्षण मार्ग के अनुमानत में इन्हीं एजीएम का मोटिय और विशीय में 2023-24 के लिए वार्षिक ऐर दुर्वस्टुटीक प्रति केवल पन सदस्यों को नेकी जाएगी जिल्क ई—नेक पत्रे कंपनी, एजिस्ट्रान तथा क्षेत्र ट्रांस्थल एजेट (आरटीए) हिंचा स्वित्तिक केवल पत्रे कार्यक्रिक हैं। प्रत्येश स्वत्यक्षित कंपनी की केवलाएं क्ष्या कर कार्यक्रिक की उपलेख एक एक प्रति क्षार्थित किए स्वत्यक्ष स्वित्त केवला किए स्वत्यक्ष स्वत्यक्ष स्वत्यक्ष स्वत्यक्ष स्वत्यक्ष स्वत्यक्ष स्वत्यक्ष स्वत्यक्ष एक स्वत्यक्ष स्वत्यक्

ह-नारिय संस्तु प्रत्य करणा। अपनी ने शिक्षं -हेनिय के जिएर अध्या एजीएम के दौरान ई-नोरिय से मतदान के लिए सदस्यों की पत्रता के निर्मारण के लिए "कट-ऑफ किंदि" के लिए सुक्रमार, 23 अपनद, 2024 निर्मारित किंगा है जिस के प्रत्य कर निर्मार के लिए सहस्य के भी गई कर ते कि लिएई -हेनिया अद्योग मंत्रकार, 27 अपनस, 2024 को (प्रांत- 9.00 मजे से) प्रारंग होगी और मुहस्यविवार, 23 अपनस, 2024 (अपराहान 5.00 मजे) (पास्तीय मानक समन) पर समाप्त हो जाएगी। इसके अतावा, कंपनी एजीएम के दौरान मतदान करने के लिए इसके प्रतावा, कंपनी एजीएम के प्रताव करणां।

िलंदू =-विदारित सिरम्पा जारहस्य कराएगा।

Read दें त्रिति, सामां और सामांग्रंग पर कटं:

पहरम्य आगे यह नीट कर से कि अंधनी के निदेशक मंदल ने 28 महं, 2024 को हुई आपनी बैटक में, 25वीं एजीएम में देशकार,
पहरम्य आगे यह नीट कर से कि अंधनी के स्थान के 400 / - के अधिम सामांग्रंग की रिकारित की है। तिसीच य

सामांग्रंग प्राप्त करने के रित्य परस्यों की पाजवा के निर्माण के पदरेश के रित्य 'रिकारित क्रिमी' युक्तमर, 22 अपस्त, 2024 हैं।

अपीय सामांग्रंग आपना सिक्ता अंतास्त्र के प्राप्त कर स्थान स्थान

नज पर जाएंगा कंपनी आयितयार, 2013 की धारा 91 के अनुसरण में, कंपनी के सदस्यों का रिजस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स वार्षिक आम बैठक और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए अंदिम तामांसा के मुनतान के लिए. यदि एजीएम में घोषित किया जाता है, **शनिवार, 24 अगस्त, 30 अगस्त, 2024** (दोनों दिवस शामिस) तक बंद रहेंगे।

30 अगरत, 2026 (सामा स्वरण लामान) कर बर रहे। वित क्रांत्रियम, 2026 (सामा अवस्था के अनुस्त तमांक मानान मधा लागू रही पर स्वरीत पर कर की कटीती (टीडीएस) के विश्वामीन होगा। होगे प्रतित टीडीएस रह के मिर्माल में महातान के लिए सरदायों से अनुस्ति होते के आधिनाम के प्रधानमां के अनुस्त्र संगत दसालेक प्रस्तुत कर है। 'बितीय वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम सामांग पर स्वीत पर कर कटीती (टीडीएस) के संदर्भ में मुक्तमा' संबंधी एक विश्तुत मोटिस कंपनी की वेबसाइट, www.icc.com पर बाता गया है। आफिक विश्वाम के लिए कृप्ता 25थीं एजीएस के मीटिस की टिप्पीमोर्ग को सर्वन लें हो?

नकी लामांश प्राप्त करने के लिए, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है, ई—मेल पतों सहित केवाईसी विवरण, बैंक विवरण दर

न का तराके। में अपने परिपन्न दिनांक 17 नवंबर, 2023, के तहत परिपन्नों दिनांक 3 नवंबर 2021, दिनांक 14 दिसंबर, 2021 ("एसओप परिपन्न") के रा, आरटीएल द्वारा निश्चक के सेवा अनुरोधों के हिए सामान्य और सरतीवृत्त नियम तथा मैंन पूर्ण पता, ईं-मेल पता, मोबाइल नंबर, नग सहर कै विद्यन्त की प्रमानांका ("केसडीय विदयन") प्रेषीय करने दुनियम परिवादित किए हैं. रखों से अनुरोध हैं कि वे अपने केवाईंसी विवरण के पंजीकरण /अद्यतन के लिए गीचे वर्षित प्रक्रिया का वासल करें।

भौतिक रोगर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि अपने हूं—मेल को और वैक खाता मिरण कार्न आईएसआर—। ने मिधिया हत्यापित अनुरोध पत्र वाचा में समर्थित रहासोक कंपनी के आरटीए अर्थात अस्तिक असासुन्नेदृत्र विभिद्धेत्व अस्तिक ताइस अहं, 22 असेनासाए एक्ट्रपटना (निकट इंडेस्ट्रास्ट में हो प्रतिक्र में ताइस्ट्री मार्टाक के अस्तिक ताइस अहं, 22 असेनासाए एक्ट्रपटना (निकट इंडेस्ट्रमान में होट स्ट्रीम, वर्ष होती के जिए एक्ट्रपटना किंद्रपटना के स्ट्रास्ट में ताइस के स्ट्रास्ट में ताइस के स्ट्रास्ट में ताइस के स्ट्रास्ट में कराईस के स्ट्रास्ट में ताइस कारण में ताइस करने तो साथ गिमारिविद्या कारण में ताइस करने तो साथ गिमारिविद्या कारण में ताइस कारण में ताइस करने के स्ट्रास करने के साथ गिमारिविद्या मार्ट्स के साथ गिमारिविद्या कारण में ताइस कारण में ताइस करने के स्ट्रास के स्ट्रास के स्ट्रास कारण में ताइस करने के स्ट्रास के स्ट्रास के स्ट्रास कारण में ताइस करने के स्ट्रास के स्ट्रा

क) फोलियां नं. ख) शेयरधारक का नाम, ग) ई-मेल आईडी, घ) मोबाइल नंबर

इ) पैन कार्ड की प्रति (स्वयं सत्यापित), च) पते के सबूत की प्रति (स्वयं सत्यापित) छ) शेयर प्रमाण-पत्र की प्रति

प्रभार अरप्पार्थण के गाँग गण रहनां है। तरदस्य कृष्या गाँग रूप हैं कि केवाईसी अरातन के लिए दस्तावेज क्यां सत्यापित और दिनांकित हार्ड प्रतियों के जिए आरपिए के उपर योगिंप पाँग पर अथवा इनेक्ट्रागिक पद्धित से गेंग जा सकते हैं बसते कि इन्हें आरपिए के पाप मंजित्व पास्क के ईन्सिक बाईसि के पिए गेंग जाता है और साथी स्वाचित्र गेंग्यसारक द्वारा और संयुक्त धारकों के मामले में प्रथम संयुक्त धारक द्वारा, स्वयं सत्यापित किए गए होने घाडिए।

कृपया अपने डिमाजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुरूप, अपने डीमेंट खाते में अपना ई—मेल पता और बैंक खाता विवरण दर्ज कराएं।

केसी प्रमान / शिकायत के मानते में सदस्य <u>http://immw.evoting.nsell.com</u> के वाजनतोड खण्ड में उपलब्ध "सदस्यों के लिए बार्थवर पुछे जां तो प्रमत्ती (एकप्यकुर) और सदस्यों के लिए रजीएम में माणियती तथा शिल्ड -हेजीटिंग पूजन में हुआ का बार्टा की सकते हैं अबवाद टीस की में. 22-48801000 और 2-2-8891000 पर कार्ट कर से सदस्य करने जो <u>immstersalfire</u>t.com पर है—मेन मी तिस्य सकते हैं। आईआरसीटीसी लिमि. के निदेशक मंडल के आदेशानुसा

दून 'चलंगी। हमारे लिए महिला सुरक्षा हमारे लिए बड़ा मुख है। आप लोग अपने लोगों को समझाएं कि कानून का पालन करें। मुख्यमंत्री गुरुवार को विचानसभा में बजट पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो करोग कर आनेगा। हैं भाहम्मद अरबाजा उच्छान चना सदस्यों की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह हैं आपके सद्धभावना वाले लोग। इनके लिए 'सद्धभावना ट्रेन' चलाएंगे क्या। इनके लिए तो 'बुलेट आर आधवक्ता अजय प्रताप सिंह न कुछ माह पूर्व अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में निगरानी अर्जी दाखिल की थी। कि जो करेगा वह भूगतेगा। 學學 Dabur India Limited Dabur 7.8% N^{*}amazin'!

			(₹	in crores, except ratios
Extra	ct of unaudited consolidated financial results for the quarter ende	ed 30 June 2024	- de	
S. No.	Particulars	Quarter ended (30/06/2024)	Corresponding quarter ended (30/06/2023)	Previous year ended (31/03/2024)
1	Revenue from operations	3,349.11	3,130.47	12,404.01
2	Net Profit for the period / year (before tax, exceptional items and share of (loss) / profit of joint venture)	642.65	593.56	2,359.25
3	Net Profit for the period / year before tax (after exceptional items and share of (loss) / profit of joint venture)	642.45	593.36	2,358.74
4	Net Profit for the period / year after tax and share of (loss) / profit of joint venture	494.35	456.61	1,811.31
5	Net Profit for the period / year after tax (after non controlling interest and share of (loss) / profit of joint venture)	500.12	463.88	1,842.68
6	Total Comprehensive Income for the period {comprising profit for the period / year (after tax) and other comprehensive income (after tax) }	487.06	443.15	1,750.82
7	Paid-up equity share capital (Face Value of ₹ 1 each)	177.23	177.20	177.20
8	Reserves (excluding Revaluation/capital Reserve)	10,084.84	9,227.08	9,586.58
9	Securities Premium Account	547.68	534.15	534.39
10	Net worth	10,262.07	9,404.28	9,763.78
11	Outstanding Debt	1,304.09	1,394.78	1,365.09
12	Debt Equity Ratio	0.13	0.15	0.14
13	Earnings per share (Face value of ₹ 1 each) (not annualised)			
	(a) Basic	2.82	2.62	10.40
	(b) Diluted	2.82	2.61	10.38
14	Debt Service Coverage Ratio	17.65	21.07	17.39
15	Interest Service Coverage Ratio	24.02	29.39	23.21
16	Other Equity	10 197 36	0.254.00	0.690.10

Particulars	Quarter ended (30/06/2024)	Corresponding quarter ended (30/06/2023)	Previous year ended (31/03/2024)
Revenue from operations	2,514.16	2,347.38	9,135.60
Profit before tax	526.96	494.75	1,966.70
Profit after tax	405.39	377.67	1,509.21

The above is an extract of the detailed format of unaudited consi financial results for the quarter ended 30 June 2024 filed with the stock exchanges under Regulation 33 and 52 of SEBI (Listing Obligations nd Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of th lone and consolidated financial results for the quarter ended 30 Jun 2024 are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and Company's website (www.dabur.com).

Date: 01 August 2024

Mohit Burman

स्थानः नई दिल्ली दिशांकः 01 अगस्त, 2024

(सुमन कालप्र) कंपनी सचिव और अनुपालना अधिकारी

DIN: 00021963

नई दिल्ली। शुक्रवार • 2 अगस्त • 2024

सहारा= | www.rashtriyasahara.com

जामिया के डिस्टेंस लर्निंग पाठ्यक्रमों 16 अगगस्त से सीटों के आवंटन में दाखिले की आवेदन प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली (एसएनबी)। स्नातक पाट्यक्रमों में बीए जामिया मिल्लिया इस्लामिया के (सामान्य), बीबीए, बीकॉम और दूस्ख एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र ने बीसीआईबीएफ और शामिल हैं। विभिन्न दूरस्थ और ऑनलाइन पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन

पाठ्यक्रमा म प्रवश के लिए आवद पत्र देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जामिया के दूरस्थ ए ऑनलाइन शिक्षा केंद्र आवेदन की ने विभिन्न दूरस्थ और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन पुत्र मांगने शुरू अंतिम तिथि 31 अगस्त

आवदन पत्र मागन शुरू कर दिए हैं। ये पाठ्यक्रम दो माध्यमों में पेश किए जाते हैं, जिसमें ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा दोनों विकल्प शामिल हैं। कई स्नातकोत्तर विकरण शामिल है। कई स्नातकात्तर और स्नातक पार्चक्रमों में प्रबंध के द्वारा योग्यता परीक्षाओं की मेरिट के आधार पर खुले हैं। स्नातकात्तर पार्चक्रमों में शिक्षा, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, इतिहास, एचआरएम, पाठ्यक्रमा माराका, अग्रजा, मूगाल, हिंदी, इतिहास, एचआरएम, इस्लामिक अध्ययन, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, उर्दू में एमए और एमकॉम शामिल हैं। एमबीए पाठयक्रम में प्रवेश दिनांक 15 सितंबर को आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा।

इसके अलावा मार्गदर्शन एवं परामर्श में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, भू-सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल

गर्व शिक्षा में दिप्लोमा कंप्यस एव शिक्षा में डिप्लामा, कथ्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्क प्रौद्योगिकी में प्रमाण-पत्र, सूचना एंव प्रौद्योगिकी में प्रमाण-पत्र के लिए भी प्रवेश चालू हैं। प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र बृहस्पतिवार से उपलब्ध करा दिया गया है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि २१ अगस्त है 17 सितंबर से दस्तावेजों का सत्यापन एवं शुल्क का भुगतान शुरू होगा। उम्मीदवारों को 29 सितंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

पी.एम. श्री केन्द्रीय विद्यालय ए-७. सेक्टर २४ नॉएडा-२०१३०१ (उ.प्रदेश) निविदा सूचना

प्रतिष्ठित पंजीकृत तथा अनुभवी फर्मों / सप्लायरों से वर्ष 2024-25 एवं 2025-2026 के लिये विद्यालय में जलपान गह हेत जिनके पास वैध GST/FSSAI/LABOUR LICENCE एवं सम्बंधित दस्तावेज आदि होना आवश्यक है। इच्छक एवं अनुभवी कंपनियों से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी विद्यालय से केवल कार्य दिवसों में प्राप्त कर सकते हैं। जिसको 10 दिन अंदर (जिसमे प्रकाशित दिवस भी शामिल है) प्राप्त एवं जमा

नई दिल्ली (एसएनबी) । आखिरकार दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्र 4.59 बजे तक वें ने इंदिरेस (एसऐनजा) जाखिरकार दिस्सा वर 2024-25 के अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में दाखिला प्रक्रिया की घोषणा बृहस्पतिवार को कर दी गई। डीयू में सीटों के आवंटन के साथ दाखिला प्रक्रिया 16

म साटा के आवटन के साथ दाखिसा आक्रमा 16 अगस्त से शुरू होगी और दो राउंड में चलेगी। पहला राउंड 16 से 21 अगस्त चलेगा, जबकि दूसरा राउंड 25 से 30 अगस्त तक चलेगा। इसी के साथ डीयू ने कॉलेज और पाट्यक्रम भरने के विकल्प देने का सेकेंड राउंड भी बृहस्पतिवार को शुरू कर दिया, यह प्रक्रिया 7 अगस्त शाम 4.59 बजे तक चलेगी। इसके बाद 11 अगस्त को शाम 5 बजे डीयू सिमुल्टेड रैंक लिस्ट जारी करेगा। इसी दिन शाम पांच बजे से दिए गए विकल्पों में बदलाव करने का अवसर छात्रों को दिया जाएगा। यह अवसर 12 अगस्त रात 11, 59 बजे तक जारी रहेगा। इसके बाद 16 अगस्त शाम पांच बजे पहली दाखिला लिस्ट जारी की जाएगी। इसी के साथ सीटे

का आवंटन व उसकी स्वीकृति शुरू हो जाएगी। छात्रों को आवंटित सीटों को 16 अगस्त शाम 5 बजे से 18 अगस्त शाम 4. 59 बजे तक स्वीकार करना होगा। इसी के साथ 16 अगस्त शाम पांच बजे से 20 अगस्त शाम

के साथ होंगे दाखिले

डीयू दाखिला 2024-25 डीय ने जारी किया दाखिला शेड्यूल

> पाठ्यक्रम और कॉलेज का विकल्प शुरू, अंतिम तिथि 7 अगस्त

 दो राउंड में चलेगी दारिबला प्रक्रिया सिमुलेटेड रैंक लिस्ट 11 **को**

स्वीकृति के साथ ही छात्रों को फीस जमा करनी होगी। पहले राउंड के तहत फीस जमा करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त शाम 4.59 बजे घोषित की गई है। इसके बाद दूसरा राउंड शुरू करने पर पूर्व 22 अगस्त को शाम 5 बजे छात्रों के डैशबोर्ड पर या जारता का साम 3 बच छाता के डराबाड पर खाली सीटों का ब्योरा उपलब्ध कराया जाएगा। डीयू कॉलेजों और पाठ्यक्रमों के विकल्पों में बदलाव के लिए २२ अगस्त शाम 5 बजे से २३ अगस्त शाम १८१६ २२ जनस्त सान ५ वर्ज से २५ जनस्त सान ४.59 बजे तक का अवसर देगा। इसके बाद 25 अगस्त शाम पांच बजे दूसरी दाखिला लिस्ट घोषित की जाएगी जिसके तहत सीटों का आवंटन कर दिया जाएगा। इसी दिन और इसी समय से छात्रों को 27 अगस्त शाम 4. 59 बजे तक आवंटित सीटों को स्वीकार करना होगा। इसके साथ 25 अगस्त से स्वीकार की गईं सीटों के लिए वेरिफिकेशन और अप्रूवल की प्रक्रिया 29 अगस्त शाम 4. 59 बजे तक

चलेगी। छात्रों को सीटों की स्वीकृति के साथ अपनी फीस अंतिम तिथि 30 अगस्त शाम 4 59 बजे तक जमा करनी होगी। विश्वविद्यालय सीटें खाली रहने पर और राउंड भी चला सकता है।

स्कूल बंद होने की सूचना देरी से मिली

बैरंग लौटे स्कूली बच्चे व परिजन

■ स्कूलों ने सुबह आनन-फानन में व्हाट्सऐप

पर पेरेंट्स को दी सूचना

नई दिल्ली। एसएनबी

दिल्ली में भारी बारिश और जलभराव को लेकर दिल्ली सरकार के देर रात स्कूल बंद करने का फैसला लिए जाने का असर बृहस्पतिवार को देखने को मिला। बुधवार देर रात शिक्षा निदेशालय ने स्कूल बंद होने का स्कुलर जारी किया। इसका नतीजा यह हुआ कि कई बच्चों को पता नहीं चला कि आज स्कूल बंद है। लिहाजा वह तैयार होकर अपने अभिभावकों के साथ स्कूल के लिए निकल गए।

जब स्कूल पहुंचे तो पता चला कि स्कुल बंद है और फिर बच्चों व सुबह पता चला कि बंद करना है स्कूल

स्कूरा चंद है जार किर बच्चा प परिजनों को बैरंग लौटना पड़ा। गौरतलब है कि बच्चों, शिक्षकों गौरतलब ह कि बच्चा, ।शक्षक। और प्रबंधन से जुड़े लोगों को सुबह स्कूल पहुंचना होता है, इसलिए वह रात में जल्दी सो गए। सुबह पता चला कि स्कूल बंद है। ऐसे में सुबह रहा

6 बजे के बीच स्कूलों ने व्हार्सऐप ग्रुप पर अभिभावकों और शिक्षकों को स्कूल बंद होने की सूचना जारी की। एक स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि मुझे भी सुबह ही पता चला कि स्कुल बंद है। हमने तुरंत सुबह-सुबह वाट्सऐप ग्रुप पर

स्कूल बंद होने के संदेश डाला, लेकिन सुबह के समय सर्भ

अभिभावक, जिन्हें अपने बच्चों को लेकर खुद जाना होता है, व्हाट्सऐप लकर खुद जाना होता है, व्हाट्सर्व पर संदेश देखने से चूक गए और अपने बच्चों को लेकर स्कूल पहुंच गए। कुछ अभिभावक जब स्कूल के लिए निकले तो उनके रिश्तेदारों ने बताया कि स्कूल बंद होने का संदेश आया है। उन्हें आधे रास्ते से वापस

घर लौटना पड़ा, लेकिन बहुत से अभिभावकों को पता नहीं लगा कि स्कूल वंद है और वह स्कूल के दरवाजे तक पहुंचकर वापस लौटे। शिक्षा निदेशालय के देर रात सर्कुलर जारी करने के चलते यह स्थिति हुई।

आप सभी क्षेत्रवासियो व

जनपद वासियों को

दाखिले के बाद बची सीटें भरने को विवि आयोजित कर सकता। परीक्षा : यजीसी

जाना जो जिस्सानबी)। विश्वविद्यालय अनुदौन आयोग (यूजीसी) ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि यदि सीयूईटी के माध्यम से प्रवेश के बाद स्नातक और स्नातकोत्तर पाद्यक्रमों में सीटें खाली रह जाती हैं तो केंद्रीय

त्वार कार्या रहे जाता है ता फक्राज विश्वविद्यालय अपनी स्वयं की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकते हैं या योग्यता परीक्षा के अंकों के आधार पर छात्रों को प्रवेश दे सकते हैं।

पूरे शैक्षणिक सत्र सीटें खाली रखना संसाधनों

छात्रा को प्रयंत्र दे सकत हैं। की वर्वादी
यूजीसी ने कहा कि पूरे रिक्शण वर्ष
के लिए सीटें खाली रखना न केवल संस्ताधनों की वर्वादी है बल्कि इससे केंद्रीय विश्ववीवधालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करते के हच्छुक कई छाजों को पुण्तापण्ण उच्च शिक्षा स्त्रप्त करते के हच्छुक के हों छोजों को पुण्तापण्ण उच्च शिक्षा से चीवत होना चुले हा हालांकि वूजीसी ने स्पष्ट किया कि 'कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट'

(सीयईटी) के अंक ही छात्रों को प्रवेश देने के प्राथमिक (साबुद्ध) के अक हा छात्रा का प्रवश्न दन के प्राथानक मानदेंड बने देहीं। जूशीसी अज्यह एम जादीश कुनार ने कहा कि यूजीसी के संज्ञान में आया है कि कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तीन या चार दौर की काउंसालग के बाद भी सीटे खाली रह जाती हैं। पूरे श्रीक्णिक वर्ष में सीटे खाली रखता न केवल संसाधनों की बर्बादी है।

आप सभी क्षेत्रतासियो त 🚁 जनपद वासियो को महाशिवरात्रि ततंत्रता दिवल्य वर्शाबंधवा की हार्दिक श्रुभकामगारों.. विकास बस सर्विस हमारे यहाँ डीलक्स AC व सादी बसे और 32 व 52 सीट बसे समस्त भारत के लिए हर समय उपलब्ध है



गुमशुदा/अपहृत की तलाश



सर्वसाधारण को चुवित किया जाता है कि एक आदमी (कोटो में दार्शीय गई) जिसका नाम सोहराब पुत्र गिरीश मारद्वाज निवासी म. नं. ए-88, मली मं. 5, केलाश विहार पंचाली, दिल्ली जी दिलांक 15.08. 2024 को सुबज 10:00 बजे से अपने घर से लामता, जमहुत है इस बंदने में एक खेंडी मं. 71ए दिनांक 24.08.2024 को खाना बेगमपुर, दिल्ली में दर्ज हैं। स्थानीय पुलिस ने इस आदमी का पता लगाने के लिए गंगीम प्रवास किए लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला हैं।

जिसका हुलिया नीचे दिया गया है:-

ाजसका हुतिया नीचे दिया नया है-लिंग: पुरुष, आयु: ३० वर्ष, कद: 5' 9' फीट, रंग: गेंहुआ, बेहरा: चाकोर, शरीर: पतला, पहनाबा: तफेद कमीज, काली पेन्ट और काले पेरों में काले जूते पहने हुए हैं। आप किसी को इस गुमयुवा/अध्यहत आदमी के बारे में कोई जानकारी फिले तो निम्नतिवित्त पते पर सूचित करें-श्रामा प्रमाणी

वेबसाइट: http://cbi.nic.in ई–मेल: cic@cbi.gov.in विश्राहर, IIII-ई–मेल: cic@cbi.gov.in टेली. न: 011-24368638/24368641

थाना प्रभारी थानाः बेगमपुर, दिल्ली -27579033, 27581117 खागः बनगरुः, । फोनः 011–27579033, 27581117 मोबाइलः 8750870323 DP/8648/RD/2024

यायालय अपर कलेक्टर (प्रशासन), लखनस

वाद सं. डी-202410400002510 बैंक ऑफ बडौदा बनाम मेठ गरुडा ट्रांसवर्ल्ड प्राठलिठ धाय-14 सरफेरी एक्ट निया तिथि 08.02.024 नीया तिथि 08.02.024 नीया तिथि 08.02.02 में २ गरुख दुर्गस्य होस्सर्वेश आस्तिर जीप कार्यांत्र वस्त्य गं० 490/01/2/3 निकट पीपल त्या जुमा जामनीसर्वेश बरस्पुर 110044 औमती सरकीमा मकवी, पर्सेट गंठ 680, टावर गंठ 7 यूर्वान्सल हाईट्स, जेटा 1. जेटर गोएखा

चिता होता नाकती, पहेंद नं ० 808, टावर नं ० र पूर्वान्वत हाईट्स, जेटा 1, ग्रेटर नोएखाँ

2. कीएती सकीया नाकती, पहेंद नं ० 808, टावर नं ० र पूर्वान्वत हाईट्स, जेटा 1, ग्रेटर नोएखाँ

3. की संकत्त यादन पुत्र नोता पत्र मार्च्य मार्च्य, राज्य नाक्ष्म के प्राथम के प्रायम के प्रायम के प्रायम के प्रायम के प्राथम के प्रायम के के प्रायम के के प्रायम के प

पिशिवा IV-A

अवस्त चंपित की विक्री के लिए विक्री चूलना
सिवयुरिटी इंटरेस्ट (एम्फोर्सिम्ट) करन, 2002 के मियन 8(0) के नियानों को पढ़ते हुए
सिवयोरिटाइनेकन एंड सिक्युटिटी इंटरेस्ट (एमफोर्सिम्ट) करन, 2002 के मियन 8(0) के नियानों को पढ़ते हुए
स्ट, 2002 के आपिन अवस्त चांपी की सिकी के लिए ई-नियानों सिकी युस्ता।
सामान्य कर से नामान्य को और सिकेंग कर से प्राण्यत्व ((a)) बागान्य (स्ट) को सुवित को और सिकेंग कर से प्राण्यत्व ((a)) बागान्य (स्ट) को सुवित को अपत्व शिक्युटिटी इंग्लिक स्वार्थक (सिकेंट को अपत्व शिक्युटिटी इंग्लिक स्वार्थक (सिकेंट को अपत्व को सिकेंट को सिकेंट सिकेंट (सिकेंट सिकेंट (सिकेंट प्रार्थक सिकेंट (सिकेंट प्रार्थक सिकेंट को अपत्व को सिकेंट के भाग से जाना जाता को (101) : 1.58922D1.2009FL-136023) ("पृश्वित लेक्सर प्राण्यत्व के स्वार्थक अपत्व सिकेंट (स्व के इ. 50.9.2024 के प्राण्य का 40.60 को के 16.00 को का 16.00 को को का 17 (स्व के सिकेंट के अपत्व के सिकेंट के

क्षात्रकार मुख्य मा ११७५० क शक्स हुआ | अस्मता स्वाप्तर्थीं के सर्वाम असमतीय स्वाप्तर्थीं के क्षात्रिम नेक १९९०, दिस्तका २२२.०६ वर्ग मीटर (स्वरमण 2400 वर्ग फीट) का पुत्रद रहिया है, मीर्वी मंत्रिक तप, टॉवर ए में, आसावीय परियोजना को "ट्रस्केटन" सम्बन्ध आता है, सेक्टा 37-वीं में रिसेटा, पुरुवाम – 122002, हरियाणा, एक कर्वे कर पार्वीय मधान के

शिक्षक संघ चुनाव में राजनीतिक हस्तक्षेप की शरुआत : जीएसटीए

नई दिल्ली (एसएनबी)। एक माह से पूर्व गवर्मेंट स्कूल टीचर्स पसोसिएशन (जीएसटीए) चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति हुई थी। अब तक चुनावी प्रक्रिया में काफी प्रगति हो जानी चाहिए थी.

■ चुनावी

प्रक्रिया

आरंभ करने के

लिए

सुझाव

पर उठे

मांगे जाने

लेकिन बुधवार बीते को भुषपार का निर्वाचिन अधिकारी द्वारा एक परिपत्र जारी हुआ, जिसमें चुनावी प्रक्रिया आरंभ करने के लिए सुझाव मांगे गए हैं। राजकीय ग्रालय शिक्षक

महासचिव अजय वीर यादव ने बताया कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी इस परिपत्र से स्पष्ट होता है कि शिक्षक संघ के चुनाव में राजनीतिक हस्तक्षेप की शुरु आत हो चुकी है। यह परिपत्र चुनाव टालने व सरकार की मनचाही दिशा में मोडने के उद्देश्य से जारी किया गया है। परिपत्र में मांगे गए सुझावों की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जीएसटीए महासचिव के नाते यह सभी जानकारियां देने का दायित्व महासचिव का था और वो सभी जानकारी पहले ही निर्वाचन

अधिकारी को दी जा चुकी है। आईपीय में ओरिएंटेशन व इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित

नई दिल्ली (एसएनबी)। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (आईपीयू) ने लॉ और बायोटेक के नए छात्रों के लिए एक ओरिएंटेशन व इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर छात्रों को विश्वविद्यालय परिसर, संबंधित स्कूलों व फैकल्टी से परिचित कराया गया। औपचारिक कक्षाएं 5 अरापा गया। जापचारिक कवाएँ उ अगस्त से शुरू होंगी। लॉ के छात्रों का यूनिवर्सिटी

स्कल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज के डीन प्रोफेसर क्विनी प्रधान ने स्वागत किया। उन्होंने छात्रों को सह-पाठ्यक्रम और अतिरिक्त-पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में लगभग 180 स्नातक व 120 एलएलएम







जामिया मिटिलया इस्लामिया (संसद के अधिनियम द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय) (एनएएसी द्वारा "ए++" ग्रेड प्रत्यायित)

मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, नई दिल्ली-1100: डाक द्वारा उर्दू सीखें

जामिया मिल्लिया इस्लामिया हिन्दी अथवा अंग्रेजी माध्यम

में एक वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित करता है। प्रवेश पूरे वर्ष खुले हैं।

- नामांकन शुल्क (भारत में)
- ₹ 500 / -
- विदेशी (सार्क देश) • अन्य देश
- अमेरिकी डालर 20 अमेरिकी डालर 50

(श्री एम. नसीम हैदर)

जना परी कोई शिक्षण शुक्क प्रमारित नहीं किया जाता है। प्रयोश प्रमत्र और विस्तृत विवरणिका मानद निदेशक, उर्दू, पत्राचार पाठ्य क्रम, दूरवर्ती और ऑनलाइन शिक्षा केन्द्र (सीडीओई), जामिया मिल्लिया

इस्लामिया, नई दिल्ली—110025 को एक स्व-पता लिखित 24 गुणा 12 सॅटीमीटर आकार का रू. 10/— की डाक टिकट लगा लिफाफा मेजकर प्राप्त की जा सकती है।

प्रवेश प्रपत्र जामिया की वेबसाइट से भी डाउनलोड किये ज http:ucc@jmi.ac.in/centres/cdol/uccform.pdf

सीबीसी 21246/12/0001/2425

कार्यालय मिल रोड. शामली

पंजीकृत और कॉपॉरेट कार्यालयः 11वां तल, बी–148, स्टेटसमैन हाउस, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली .110001 टेली.: 011–23311263–64, फैक्स: 011–23311259 वेबसाइट: www.irctc.com ई–मेल: investors@irctc.com

हारा सुपना दो जाती है कि कॉकींट कार्य मंत्रात्सय द्वारा चरित्रत दिगांक 25 सिपाबर, 2022, सेवी घरित्रत सं. सेवी (एपको, 11–2/9) (पर्ड/,2022) 160 दिनांक 7 अब्दूसर, 2022, तथा अन्य सात् करियुमाओं की अनुपालना में और पेवी (एपीकरण कर्जाया) तिमित्रा, 250 दिनी (एकोकीमा) तिमित्राणीं के ज्यान से दिकार गंदन के विदेश एक दूरितां कर्जायों के प्रत्यों की प्रवासित होता कार्यों के स्वास्थ्यों की अवस्था के स्वास्थ्यों के प्रवासी के प्रत्यों की प्रवासी कर्जी (569) वार्षिक क्षान सैक्क (एपडीएम्प), 2वर्ती वार्षिक क्षान सैक्क हुवारा जाने से मोदिस में स के संधानत होतु प्रवासी कर्जायों के प्रत्यों के स्वासी कर के स्वासी कर प्रत्यों मानक समय) बीडियों कान्योंसित की जाएगी।

ई—वोटिंग के जरिए मतदान करने का तरीका:

तर इन्यान राज्य ज्यान कर्या क्या कर करा. स्वरुद्ध आरो यह मंद्र कर ते कि क्योगी के निदेशक मंत्रल ने 28 मई, 2024 को हुई अपनी देवक में, 25वीं एपीएम में येरावा मेंद्रपारीन, कर 2/— प्रीते सेंपर के जीवित मूल्य एस बीद सेंबर कर 4.00/— के जीविम सामांच को विश्वादित की है। सितीय सामांत्र प्राप्त करने कि दिए सरस्यों की माजा के निर्माण के प्यदेशक के दिए "किवाद विधि" मुकसर, 23 अगस्त, 2024 है।

ांतिम लागांश का गुगतान विभिन्न ऑनलाइन अंतरण माध्यमां से उन सदस्यों को कर दिया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक ! एज सदस्यों के लिए, जिन्होंने अपने बैंक खाता विवरण अद्यतन नहीं कराए हैं, लागांश वारंट/हिमांड ड्रापट/चैंक का दिए जागों !

30 अपनारत, 2026 (हामा हिप्सा लागा) का पर छन। वित्त क्रीमिर्मम, 2026 (हामा क्रिया) का किए सहस्यों से अनुस्त है कि वे क्रीमिरम के प्राथमों ने क्रीस्य सहार के टीटीएस दर के मिर्ताल में बाहाताता के हिए. सहस्यों से अनुस्त है कि वे क्रीमिरम के प्राथमों में अनुस्त संस्ता स्वात असुत क वर्ष 2022–24 के लिए क्षीपम लामींय पर स्त्रीय पर क्ला कटीरी (टीडीएस) के स्टिम में सूचमा" संबी एक विस्ता मी वेनसाइए, www.tcc.com पर जाता गया है। अधिक विस्ता के लिए क्षण 20वीं एतीएस के नीटियों को टियांची का अस्ता लें. ले

इलेक्टॉनिकी लामांश पाप्त करने के लिए. यदि एजीएम में घोषित किया जाता है. ई–मेल पतों सहित केवाईसी विवरण बैंक विवरण दर्ज

करण का पांचा. वैसी ने अपने परिवार दिनांक 17 गर्वबर, 2023, के राहत परिपन्नी दिनांक 3 गर्वबर 2021, दिनांक 14 दिसंबर, 2021 ("एसकोपी परिपन्न") के साथ परिदा, आरटिएक द्वारा निवेशक के लेवा अनुरोधों के लिए सामान्य और स्टरलीकृत मित्रम राखा पैन, पूर्ण पदा, हूँ—सेक पारा, मोबाइल नंबर, नामून हरकाइस, कैंब विस्तार जी मामांक्रग (केंब्रासी विस्तान) होंबी करने हेंद्र मित्रम परिवारित क्रिय हैं.

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने केवाईसी विवरण के पंजीकरण / अद्यतन के लिए नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन करें।

भौतिक रोगर धारण करने वाले सदस्यों से अनुदेश है कि अपने हूं—तैन पते और कैक बाता विकरण कार्म आईएसआर— में विकित्या हमातारित अनुदेश पड़, बात में समर्तित रहसांके करणी के आरटीए आर्ता अस्तिक असास्मान्यित सिनिट्ट, अस्तिक असास्मान्यित सिनिट्ट, अस्तिक असास्मान्यित किंद्र, प्रतिक्रमान्य किंद्र, प्रतिक्रमान्य किंद्र, प्रतिक्रमान्य किंद्र, प्रतिक्रमान्य किंद्र प्रतिक्रमान्य कर्मान्य किंद्र प्रतिक्रमान्य किंद्र प्रतिक्रमान्य क्रियों क्षेत्र प्रतिक्रमान्य कर्मान्य किंद्र प्रतिक्रमान्य क्षेत्र प्रतिक्रमान्य क्षेत्र प्रतिक्रमान्य क्षेत्र प्रतिक्षमान्य क्षेत्र क्षेत्र प्रतिक्रमान्य क्षेत्र प्रतिक्रमान्य क्ष्य क्षेत्र प्रतिक्रमान्य क्षेत्र प्रतिक्रमान्य क्ष्यान्य क्ष् ई-मेल पता पंजीकृत करने के लिए:

इन्यान बचा प्राप्त हुए करा के स्तर् के फोरियों ने, की विवासक का माना,गो ई-मेल आईढी, घे) मोबाइल नंबर ड) पैन कार्ड की प्रति (स्वयं सत्यापित), घ) पते के सबूर की प्रति (स्वयं सत्यापित) छ) शेयर प्रमाण-पत्र की प्रति (फ्रंट और वीडे की) . बैंक खाता विवरण अद्यतन करने के लिए:

प्रधान संस्थापार के नाम का जल्लेंब हैं ने कि केवाहिंग आहता के लिए पत्ताकेंत्र कर्य सत्यापित और दिनांकित हार्ड प्रीत्मों के जारिए अतरिए के क्रपर वर्षित पोर र अध्या इसेक्ट्रॉनिक प्रधाने से केव जा सकते हैं कसतें कि इन्हें आरटीए के सार पंजिल्हा पारक हैं –में आईडी के लिए गेवा जाता है और सार देखारी का प्रधान है उसतें सार कों के मानते में प्रधान संदुल्त सारक हात, क्यां सत्यापित किए गए होने माहिए।

कृपया अपने डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुरूप, अपने डीमैट खाते में अपना ई—मेल पता और बैंक खाता विवरण दर्ज कराएं।

हर (सुमन व कंपनी सचिव और अनुपालना अ

इस बार पुरे अगस्त तरबतर रहेगा मध्यप्रदेश आज से चलेगी भोपाल से रीवा नई ट्रेन

भोपाल में नाले में बहने से बची स्कल बस

बस को जेसीबी की मदद से निकाला

नवभारत प्रतिनिधि भोपाल, 1 अगस्त. बंगाल की खाड़ी में आए तूफान का असर मध्यप्रदेश में अगस्त के पहले ही दिन देखने मिला. पहल हो। देन देखन । मला. एमपी के राजधानी समेत कई तिलों में कही भारी तो कही रिमझिम बारिश शुरू हो गई है. गुरुवार को भोपाल, रायसेन समेत 10 जिलों में

रायसन कराः बारिश हुई. इस दौरान भोपाल के करोंद करू स्कल बस इस दारान भाषाल क कराद में बच्चों से भरी एक स्कूल बस नाले में बह जाती, इससे पहले ही लोगों ने बच्चों को बस से उतार लिया. इसके बाद बस को

🕨 एक नजर में 🦼

मंत्रालय में हआ

सामहिक गाँयन

भोपाल, 1 अगस्त. उप-मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की उपस्थिति में अगस्त के प्रथम

शासकीय कार्य दिवस पर गुरुवार को मंत्रालय स्थित

सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क मे

सरदार वक्षभ भाई पटेल पार्क में राष्ट्रगीत वंदे-मातरम एवं राष्ट्रगीत कंद-मातरम एवं सामृहिक गायन हुआ. इस अवसर पर पुलिस बैंड ने देशभक्ति से आतप्रीत सुमधुर धुने प्रस्तुत की गई. सामृहिक गायन में अपर मुख्य सविव कंसी.गुमा, प्रमुख सविव राधवेन्द्र आदि उपस्थित थे.

हो टनल का कार्ये



प्रदेश में 51 प्रतिशत हुई बारिश, 23 जिलों में अलर्ट

मौसम विभाग ने भोपाल, सागर, जबलपुर, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 23 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. अगस्त के पहले ही दिन प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है, जो अगले ४ दिन तक बना रहेगा . मध्यप्रदेश में सीजन की 51 प्रतिशत यानी 18.9 इंच बारिश राज बना रहना। मध्यप्रदार भ साजन का) । प्रारक्षिय योगी 18.9 इचे बारिए। इंग्रेड हैं , जुलाई में कोटे से ज्यादा पानी पिर चुंका है , अगस्त में भी ऐसे ही आसार हैं , प्रदाश में 21 जून को मानसून आकर एक अगस्त को 40 दिन पूरे हो चूंके हैं , सबसे ज्यादा पानी सिदानी में 31.74 इंच पिरा, तो रीवा में 8 इंच से भी कम बारिए ड्राइ हों . इंज जो सिस्टम एविटव हो रहा है, उसका असर पूर्वी हिस्से जबलपुर , सागर, शहडोल और रीवा संभाग में ज्यादा देखने को मिलेगा . इसलिए आंकड़ा बढ़ेगा .

समय सीमा में बदले खराब टांसफार्मर

ऊर्जा मंत्री ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा

नवभारत प्रतिनिधि

नवभारत प्रातानाथ भोपाल, 1 अगस्त. बिजली उपभोक्ताओं की संतुष्टि और लंबित बिलों की वसूली की कार्यवाही साथ-साथ करें. जिन श्रेत्रों में उपभोक्ता समय पर क्षत्रा में उपभाक्ता समय पर बिजली बिल जमा कर रहे हैं, वहां कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. किसानों के खराब जाहिए. जिसाना के खरीब ट्रांसफार्मर निर्धारित समय सीमा में बदले जाएं. किसानों को सिंचाई के लिए दिन में ही

बिजली उपलब्ध कराएं. ये निर्देश गुरुवार को ऊर्जा य ।नदश गुरुवार का कजा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिए, ऊर्जा विभाग की योजनाओं का रूट लेवल तक प्रचार-प्रमार होना



किसानों को सिंचाई के लिये रात

में जागना नहीं पड़ेगा. तोमर ने कहा कि पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में 9 जोन कार्यालयों को स्मार्ट जोन ऑफिस काषालया का स्माट जान आफर के रूप में बनाए, यहां बिजली उपभोक्ता के लिए सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा मनु श्रीवास्तव ने विभागीय योजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी टी इस टौरान क बार न जानकारा दा. इस दारान ओएसडी विजय गौर एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

महंगाई भत्ते की पहली किश्त की

नवभारत प्रतिनिधि भोपाल, 1 अगस्त. राज्य शासन ने किसानों की सुविधा के लिए मूंग खरीदी का समय बढ़ाकर 5 अगस्त तो कर दिया है, पर सर्वर

अगस्त ता कर दिया है, पर सवर डाउन होने से गुरुवार से नर्मवापुरम समेत कई जिलों में स्लॉट बृक्तिंग नहीं हो पा रही है. इससे किसान परेशान और चिंतित है. इस मामले पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को मग्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीत् पटवारी ने पत्र लिखा, तो कर्ती गर्म केंग्रेस प्रांत्री भटका

वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरूण यादव ने भी सीएम को ट्वीट

थादव च न्यास्त्र किया है. पटवारी ने कहा कि नर्मदापुरम के किसानों की मूंग

साइक्लोनिक सर्कुलेशन से सिस्टम स्टॉन्ग

> मौसम वैज्ञानिक डॉ . दिव्या ई सरेंद्रन ने बताया कि अभी ानसून ट्रफ प्रदेश से थोड़ी ऊपर है. साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर की ओर है. एक अन्य साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी है. अब इनकी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी देखने को मिल सकती है . इसलिए अगले 4 दिन के लिए प्रदेश में कहीं भारी, तो कहीं हल्की बारिश का अनमान है.

जेसीबी की मदद से निकाला जसाबा का मदद से निकाला जा सका. मौसम विभाग ने 5 अगस्त तक प्रदेश में रिमझिम, तेज या बारी बारिश होने की

सीएम यादव ने स्वप्निल

कुसाले को पदक

जीतने की दी बंधाई

भोपाल, 1 अगस्त. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले को ओलंपिक में

स्थाजल कुसाल का जालावक न 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशंस स्पर्धा का कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है.डॉ यादव् ने सोशल

मीडिया एक्स पर पोस्ट किया

'पेरिस ओलंपिक 2024 में फिर

'पीरंस ओलीपक 2024 में फिर लहराया तिरंगा..कुसाले को कांस्य पदक जीतने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, आप और देश के अन्य खिलाड़ी इसी तरह मां भारती को गौरवान्वित करते रहें और आप सबका विजय

रथ ऐसे ही गतिमान रहे, यही शुभेच्छा है. सीएम के अलावा

शुभच्छा है. सार्य के अलावा उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला,जगदीश देवड़ा समेत राज्य मंत्री कृष्णा गौर आदि ने भी

रहेगा. गुरुवार को जिलों में बारिश होने से नाले- सड़क जलमग्न हो गए हैं. मंडला में नर्मदा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है. रामनगर और छोटा पुल डब गया है. नदी का जलस्तर 437.30 मीटर पर पहुंच गया, जबकि खतरे का निशान 437.80 मीटर है. वही यहां की 437.80 माटर है. वहा यहां का बुढ़नेर नदी में आई बाढ़ में एक महिला फंस गई थी. एसडीईआरएफ ने उसका रेस्क्यू किया. प्रदेश में विदिशा, शाजापुर,

प्रदेश में जिंदुरी, शाजाबुर, राजगढ़, गुना, सतना, जबलपुर, नर्मदापुरम और रतलाम में भी पानी गिरा. प्रदेश में 31 जुाई

संभावना जताई है. वही अगस्त के सावन-भादो में तरबतर

पाना गरा. प्रदेश में 51 जुई तक के आंकड़ों के मुताबिक ओवरऑल 7 प्रतिशत बारिश अधिक हो चुकी है.

नवभारत प्रतिनिधि भोपाल, 1 अगस्त. पश्चिम मध्य रेलवे शुक्रवार से विध्य प्रदेश रीवा के बीच नई ट्रेन शुरू करने जा रही है. खास बात ये है कि ट्रेन संख्या 22145/ 22146 भोपाल-रीवा-भोपाल 22146 मापाल-रावा-मापाल सुपरफास्ट द्वि-साप्ताहिक के रूप में चलेगी. अभी रानी कमलापति से रीवा ट्रेन चल रही

कमलापित से रीवा ट्रेन चल रही है, जोंकि बीना, सागर, कटनी होकर रीवा जाती है. वहीं नई ट्रेन भोपाल से चलकर रानी कमलापति, नर्मदापुरम, इटारसी, जवजिर, होकर रीवा जाएगी. इस ट्रेन से बीच के स्टेशनों के यात्रियों को काफी सुविधा हो जाएगी.

काका सुाववा हा जाएगा. पमरे भोपाल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया



बढ़ते यातायात को देखते हुए दोनों शहरों के बीच नई रेलसेवा संचालन करने का निर्णय लिया है. ट्रेन संख्या 22145 और 22146 भोपाल-रीवा-भोपाल सुपरफास्ट द्वि-साप्ताहिक रहेगी, जोकि भोपाल से प्रत्येक शुक्रवार एवं रविवार और रीवा से शनिवार एवं सोमवार को नियमित रेलसेवा के तौर पर संचालित होगी. इस ट्रेन में दिशाओं में क्रमोजिशन के तहत 01 गमी प्रथम सह द्वितीय, 01 एसी द्वितीय, 01 एसी द्वितीय सह तृतीय श्रेणी,

ये रहेगा शेड्यल

22145 भोपाल-रीवा पुपरफास्ट प्रति शुक्रवार और रविवार भोपाल 23.00 बजे प्रस्थान, रानी कमलापति 23.13 बजे, नर्मदापुरम 00.13 बजे, इटारसी 00.55 बजे. पिपरिया 02.02 बजे बजे, पिपरिया 02.02 बजे, गाडरवारा 02.38 बजे, नरसिंहपुर 03.12 बजे, जबलपुर 04.45 बजे, किटा 06.05 बजे, मैहर 06.53 बजे, सतना 07.40 बजे, रीवा 09.15. 22146 रीवा-भोपाल सुपरफास्ट प्रति शानिवार और सोमवार रीवा 22.30 बजे रीवा 22.30 पस्थान करेगी.

सामान्य एवं 02 एसएलआरडी

कांग्रेस ने किया चुनावी रणनीति पर मंथन

पटवारी ने पीसीसी मुख्यालय में ली उज्जैन के कांग्रेसियों की बैटक

भोपाल, 1 अगस्त. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीत पटवारी ने उज्जैन जिले के कांग्रेसजनों. उज्जन जिल के काग्रसजना, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, ब्लाक अध्यक्षों की संगठनात्मक बैठक ली, इसमें संगठनात्मक मजबूती एवं रणनीति पर मंथन किया गया. पटवारी ने कांग्रेसजनों से कहा कि संगठनात्मक स्तर पर पार्टी में और अधिक मजबूती लाने और अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को जोड़ने प्रयास् बैठक में परवारी करं. बठक म ५८वारा न पदाधिकारियों से सुझाव मांगे और आगामी चुनावों के लिए रणनीति पर मंथन किया.



लोकसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पडा, कांग्रेस के एक-एक कार्यकर्ता ने जी-जान से एक-एक कायकता न जा-जान स मेहनत की, लेकिन हमारी उम्मीद के मुताबिक परिणाम हमें नहीं मिला, इससे हम थोड़ा नर्वस जरूर है. लेकिन हमारी लंडाई निरंतर जारी रहेगी. हम डरेंगे नहीं, लडेंगे और जीतेंगे. हमारे सामने काफी चुनौतियां हैं. भाजपा जनता के साथ हर मोड पर विश्वासघात कर साथ हर माड़ पर विश्वासवात कर रही है. सरकार बने छह-आठ महीने ही हुए हैं और जनता पर तीव्रता से अत्याचार बढ़ रहा है.

आदिवासी. बच्चियां, युवा सभी वर्ग परेशान

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड दूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

है भाजपा सरकार अंग्रेजों जैसा व्यवहार जनता के साथ कर रही है. इसका जमीनी स्तर पर विरोध कर . जनता को भाजपा सरकार की विरोधी नीतियों से अवगत कराएं, बैठक में उज्जैन जिले के विधायकद्वय महेश परमार, दिनेश

वोस, पूर्व विधायक मुरली मोरवाल पास, पूर्व विचायक नुरला नारवाल, दिलीप गुर्जर, जिला अध्यक्ष मुकेश भाटी सहित ब्लॉक अध्यक्षगण एवं अन्य कांग्रेसज उपस्थित रहे. इस मौके पर वरिष्ठ पवक्ता रवि सक्सेना मौके पर विष्टि प्रवक्ता रिव सक्सेना ने कहा कि दिख्ली के कोचिंग इंस्टोट्यूट में जिस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक घटना घटित हुई है, उसकी पुनांवृत्ति कहीं मध्यप्रदेश में भी ना हो जाये, इसलिए सरकार को कोचिंग सेंटरों को विस्तृत जांच कराना च्युहिए.

समय-सीमा में पुरा

भोपाल, १ अगस्त . मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि स्लीमनाबाद टनल का निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण करें . वे मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में स्थित समत्व भवन म स्लीमनाबाद टनल के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे ू मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासीय क्षेत्र के नीचे टनल निर्माण करते हुए विशेष सावधानी बरतें. बरगी व्यपवर्तन् परियोजना के तहत निर्माणाधीन स्लीमनाबाद टनल प्रदेश के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट है.

दो अपर वन संरक्षक पद्दोन्नत

भोपाल १ अगस्त. राज्य शासन ने दो अपर वन संरक्षकों को पद्दोन्नत कर प्रतिनियुक्ति पर भेजा है. उपसचिव किशोर का्त्याल के आदेश अनुसार प्रदीप वासुदेवा अपर प्रधान संरक्षक कार्य आयोजना जबलपुर से प्रधान मुख्य संरक्षक/संचालक राज्य वन सरक्षक (संचालक राज्य वन अनुसंधान जबलपुर तथा पुरुषोतम धीमान अपर वन सरक्षक से प्रधान मुख्य वन संरक्षक ग्रीन इंडिया मिशन भोपाल नियुक्त किया गया है . इसी तरह सीएस वीरा राणा के आदेश पर संदीप केरकेटा सचिव को उपसचिव गृह विभाग में भेज दिया गया है . .

कर्मियों को नहीं मिला डीए एरियर ७ .५ लाख

14 मार्च को किया था आदेश जारी

जलाई वेतन में प्रथम किस्त

नवभारत प्रतिनिधि

नवभारत प्रतिनिधि भोपाल, 1 अगस्त. मध्य प्रदेश में बारिश से तरबतर हो रहा है, फिर भी मध्य प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों को आर्थिक सूखे का सामना करना पड़ रहा है. सीएम यादव के आदेश के बाद

सागर में तिहरे

हत्याकांड के आरोपी

को किया गिरफ्तार

सागर, 1 अगस्त. मध्यप्रदेश के सागर जिले में एक महिला सहित

दो मासूम बच्चों की हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि सिविल लाइन

थाना क्षेत्र में नेपाल पैलेस के समीप प्रवेश पटेल के द्वारा भाभी वंदना (35), भतीजी अवंतिका (7) और एक अन्य भतीजी की

हत्या के मामले में गिरफ्तार कर

लिया है आरोपी ने भाभी से में विवाद के बाद धारदार हथियार

से और बच्चों पर पत्थर से मारकर

हत्या कर दी थी. इसके साथ ही आलमारी में रखे जेवरात लेकर

एरियर राशि जुलाई के वेतन में 7.5 लाख कर्मचारियों को नहीं ततीय वर्ग कर्मचारी संघ के का भुगतान देने को कहा था प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने

प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने बताया कि 14 मार्च 2024 को 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक 8 महीने के बड़े हुए महंगाई भत्ते के एरियर की प्रथम किस्त, जो जुलाई माह में भुगतान होना था उसका भगतान कोषालय

की साइट न खुलने के वजह से कर्मचारियों को नहीं हो पाया है.

तिवारी ने कहा कि यह एक गंभीर लापरवाही है. इसकी जांच होना चाहिए, जो पैसा कर्मचारियों को जिस महीने में कमचारिया की जिस महान म भुगतान होना चाहिए, उस महीने में भुगतान न होना बड़े दुख का विषय है. पहले भी कई मौके पर ऐसा हुआ है और इस बार भी ऐसे ही हुआ. 8 महीने के एरियर को तीन किस्तों में कर्मचारियों को भगतान किया जाना था. यह राशि

सर्वर डाउन होने से नहीं हो पा रही स्लॉट बुकिंग

पटवारी ने सीएम को लिखा पत्र, तो अरुण यादव ने किया ट्वीट

खरीदी नहीं हो पा रही है. पोर्टल सर्वर डाउन होने से यहां

के किसान स्लॉट बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं. इस वजह से जिले में लक्ष्य के अनुरूप खरीदी कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है. राज्य

सरकार के मूंग खरीदी बंद होने से किसान परेशान हो रहे हैं. उन्होंने सीएम यादव से आग्रह किया है कि मूंग खरीदी बढ़ाकर

5 अगस्त कर दी गई है. ऐसे में 5 अगस्त कर दो गई है. एस म पोर्टल सही करवाकर किसानों का पंजीयन पुन: शुरू करें. वही पूर्व केंद्रीय मंत्री अरूण

यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए मूंग खरीदी की तारीख बढ़ा दी है. यादव ने

कर्मचारियों के खाते में आना थी लेकिन आज जुलाई महीने के अतिम कार्य दिवस तक कर्मचारियों के खाते में प्रथम किस्त की ्राशि नहीं आई. उक्त भुगतान को लेकर आयुक्त कोष एवं लेखा ने 23 जुलाई को आदेश जारी कर 14 मार्च 2024 के आदेश का पालन करने आईएफएमआईएस में टीसीएस के दो सिस्टम मैनेजर राहुल बामने एवं आरती चौरसिया को

गुरुवार को एक ट्वीट कर कहा कि किसानों के उनके पास फोन

आ रहे है कि सर्वर डाउन चल रहा है, जिससे स्लॉट करने में दिक्कत हो

उन्होंने सरकार से मांग कि है कि

कल 2 अगस्त को भी पोर्टल खोला जाए, जिससे मूंग उत्पादक किसान स्लॉट बुक कर पाएं एवं जिन किसानों के

स्लॉट बुक हो जाए, उनकी तुलाई भी सुनिश्चित की

स्ताट बुक हा जाए, उनका तुलाई भी सुनिश्चित की जाएं.साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करे

कि समय सीमा को देखते वर्षाकाल में किसानों को उपज बेचने में कोई असुविधा न हो,

इसका ध्यान रखा जाएं

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालयः 11वां तल, बी-148, स्टेटसमैन हाउस, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली .110001 टेली: 011-23311263-64, फैक्सः 011-23311259 वेबसाइटः www.irctc.com ई-मेल: investors@irctc.com

वीडियो कान्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों ("ओएवीएम") के जरिए आयोजित की जाने वाली 25वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सुचना

रिकॉर्ड विथि. लामांश और लामांश पर कर

दस्यों से अनुरोध है कि वे अपने केवाईसी विवरण के पंजीकरण / अद्यतन के लिए नीचे वर्णित प्रक्रिया का पा

ई—मेल पता पंजीकृत करने के लिए:

क) फोलियां नं., ख) शेयरधारक का नाम, ग) ई—मेल आईडी, घ) मोबाइल नंबर

नवाचार एनपीएस के तहत कम पेशंन मिलने की शिकायतों को देखते सीएम मोहन सरकार की नई पहल

अब सरकारी कर्मचारी भी कर सकते फंड मैनेजर का चुनाव

नवभारत न्यूज भोपाल, 1 अगस्त. नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद कम पेंशन मिलने की सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों को देखते हुए मोहन सरकार ने एक नई पहल की है. अब राज्य सरकार ने प्रदेश के 4.5 लाख

एनपीएस कर्मचारियों को फंड मैनेजर का चुनाव करने की सुविधा दे दी है. इससे कर्मचारी अब अपने अनुसार फंड मैनेजर का चयन कर सकेंगे और अपने पेंशन योगदान को प्रभावी तरीके से निवेश कर पाएंगे, जिससे



रिटायरमेंट के बाद उन्हें अधिक

राशि प्राप्त हो सकेगी राज्य के वित्त विभाग के राज्य के वित्त विभाग के मुताबिक राज्य सरकार ने एनपीएस कर्मचारियों के लिए योजना का विस्तार करते हुए निवेश पद्धति और पेंशन फंड मैनेजर के चयन का विकल्प प्रदान करने का निर्णय लिया है.

_{रे}स व्यवस्था क तहत कर्मचारियों को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) में रजिस्टर्ड पेंशन फंड् मैनेजरों में से राजस्टि प्रांत फेड माजरा म स कसी एक को चुनने का विकल्प मिलेगा. कर्मचारियों को एक वर्ष में केवल एक फंड मैनेजर का चयन करने की अनुमित होगी और उसमें निवेश, के विभिन्न

विकल्प उपलब्ध रहेंगे. एनपीएस से जुड़े सूत्रों के अनुसार इसमें फंड मैनेजर को कंसरवेटिव लाइफ साइकिल और मॉडरेट लाइफ साइकिल में निवेश करने का विकल्प मिलेगा. कंसरवेटिव लाइफ

एनपीएस से कर्मियों को लाभ, पर ओल्ड पेशंन भी दे : तिवारी



मप्र राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2019 में फंड मैनेजर चुनने की सुविधा प्रदान की थी, लेकिन मध्यप्रदेश में इसे अब लागू किया जा रहा है . इससे पहले कर्मचारियों की पेंशन अंशदान को केवल एसबीआई, यूटीआई और

अंशदान को केवल एसबीआई, यूटीआई और एलआईसी में ही निवेश किया जाता था. वर्तमान में एनपीएस के लगभग 4.5 लाख कर्मचारी हैं. इसमें कर्मचारियों की 10 प्रतिशत और राज्य सरकार की 14 प्रतिशत राशि का योगदान होता है, जिसे शेयर बाजार में निवेश किया जाता है.

प्रतिशत होगी, जबिक मॉडरेट लाइफ साइकिल में सीमा 50

। प्राइकिल में इक्विटी में प्रतिशत तक हो सकती है. निवेश की अधिकतम सीमा 25 सरकारी प्रतिभृतियों में पूरी तर**रू** प्रतिशत होगी, जबुकि मॉडरेट से निवेश करने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा.































